

PART-A : Physics (Code - P)

भाग - A : भौतिक विज्ञान

1. If force (F), velocity(V) and time (T) are taken as fundamental units, the dimensions of mass are
 (1) $[FVT^{-1}]$ (2) $[FVT^{-2}]$ (3) $[FV^{-1}T^{-1}]$ (4) $[FV^{-1}T]$
 यदि बल (F), वेग (V) तथा समय (T) को मूल मात्रक मान लिया जाय तो, द्रव्यमान की विमाये होगी :
 (1) $[FVT^{-1}]$ (2) $[FVT^{-2}]$ (3) $[FV^{-1}T^{-1}]$ (4) $[FV^{-1}T]$

Ans. (4)

Sol. $F = M \times \frac{L}{T^2} = \frac{ML}{TT}$

$$F = \frac{MV}{T}$$

$$FTV^{-1} = M$$

2. A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5ms^{-1} and angle θ with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3ms^{-1} at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet is : (given = 9.8 ms^{-2})


- (1) 3.5 (2) 5.9 (3) 16.3 (4) 110.8

एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी की सतह से 5ms^{-1} के वेग से तथा क्षैतिज दिशा से θ से कोण पर छोड़ा जाता है। किसी अन्य ग्रह से 3ms^{-1} के वेग तथा इसी कोण (θ) पर छोड़े गये एक प्रक्षेप्य का प्रक्षेप पथ, पृथ्वी से छोड़े गये प्रक्षेप्य पथ के सर्वसम (सर्वथा समान) है। यदि पृथ्वी पर है $g = 9.8\text{ ms}^{-2}$ है तो, इस ग्रह पर गुरुत्वाय त्वरण का मान ms^{-2} में होगा

- (1) 3.5 (2) 5.9 (3) 16.3 (4) 110.8

Ans. (1)

Sol.



$$\frac{5^2}{g} = \frac{3^2}{a}$$

$$a = 9.8 \times \frac{9}{25}$$

$$a = 3.5$$

3. A particle is moving such that its position coordinates (x,y) are

- (2m, 3m) at time t = 0,
 (6m, 7m) at time t = 2s and
 (13m, 14m) at time t = 5 s,

Average velocity vector (\bar{V}_{av}) from t = 0 to t = 5 s is :

- (1) $\frac{1}{5}(13\hat{i} + 14\hat{j})$ (2) $\frac{7}{3}(\hat{i} + \hat{j})$ (3) $2(\hat{i} + \hat{j})$ (4) $\frac{11}{5}(\hat{i} + \hat{j})$

एक कण इस प्रकार गति करता है कि, इसके स्थिति निर्देशांक (x,y) निम्न प्रकार हैं :

- (2m, 3m) समय t = 0, पर
 (6m, 7m) समय t = 2s पर
 (13m, 14m) समय t = 5 s पर

तो t = 0 से t = 5 s तक, औसत वेग सदिश (\bar{V}_{av}) होगा :

- (1) $\frac{1}{5}(13\hat{i} + 14\hat{j})$ (2) $\frac{7}{3}(\hat{i} + \hat{j})$ (3) $2(\hat{i} + \hat{j})$ (4) $\frac{11}{5}(\hat{i} + \hat{j})$

Ans (4)


Sol. $\vec{r}_\ell = 2\hat{i} + 3\hat{j}$

$$\vec{r}_f = 13\hat{i} + 14\hat{j}$$

$$\vec{s} = 11\hat{i} + 11\hat{j}$$

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{11\hat{i} + 11\hat{j}}{5}$$

4. A system consists of three masses m_1 , m_2 and m_3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m_1 hangs freely and m_2 and m_3 are on a rough horizontal table (the coefficient of friction = μ). The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of mass m_1 is : (Assume $m_1 = m_2 = m_3 = m$)




(1) $\frac{g(1-g\mu)}{9}$

(2) $\frac{2g\mu}{3}$

(3) $\frac{g(1-2\mu)}{3}$

(4) $\frac{g(1-2\mu)}{2}$

यहाँ दर्शाये गये निकाय में तीन पिंड m_1 , m_2 और m_3 एक रस्सी से जुड़े हैं जो एक धिरनी P के ऊपर होकर गुजरती है। m_1 मुक्त रूप से लटका है और m_2 तथा m_3 एक रुक्ष क्षेत्रिज मेज पर हैं, जिसका घर्षण गुणांक $= \mu$ है। धिरनी घर्षण रहित है और इसका द्रव्यमान नगण्य है। यदि $m_1 = m_2 = m_3 = m$ है तो, m_1 का अधोमुखी (नीचे की ओर) त्वरण होगा :



(1) $\frac{g(1-g\mu)}{9}$

(2) $\frac{2g\mu}{3}$

(3) $\frac{g(1-2\mu)}{3}$


(4) $\frac{g(1-2\mu)}{2}$

Ans. (3)

Sol. $a = \frac{mg - 2\mu mg}{3m}$

$$a = \frac{g - 2\mu mg}{3}$$

5. The force 'F' acting on a particle of mass 'm' is indicated by the force-time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from zero to 8 s is :




(1) 24 Ns

(2) 20 Ns

(3) 12 Ns

(4) 6 Ns

'm' द्रव्यमान के किसी कण पर आरोपित बल 'F' को बल समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। समय $t = 0$ से 8 s तक के अंतराल में कण के संवेग में परिवर्तन होगा :



(1) 24 Ns

(2) 20 Ns

(3) 12 Ns

(4) 6 Ns

Ans. (3)

Sol. $\Delta P = \left(\frac{1}{2}\right)(2)(6) - (3)(2) + (4)^2(3)$
 $= 6 - 6 + 12$
 $= 12$

6. A balloon with mass 'm' is descending down with an acceleration 'a' (where $a < g$). How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration 'a' ?

(1) $\frac{2ma}{g+a}$

(2) $\frac{2ma}{g-a}$

(3) $\frac{ma}{g+a}$

(4) $\frac{ma}{g-a}$

'm' द्रव्यमान का एक बैलून (गुब्बारा) 'a' त्वरण से नीचे उतर रहा है। (जहाँ $a < g$) इसमें से कितने द्रव्यमान का पदार्थ हटा दिया जाये कि यह 'a' त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे ?

(1) $\frac{2ma}{g+a}$

(2) $\frac{2ma}{g-a}$



(3) $\frac{ma}{g+a}$

(4) $\frac{ma}{g-a}$

Ans. (1)

Sol. $mg - F = ma$

.....(1)



$F - (m - m')g = (m - m')a$

from (1)

$F - mg + m'g = ma - m'a$

$mg - ma - mg + m'g = ma - m'a$

$m'(g + a) = 2ma$

$m' = \frac{2ma}{g+a}$

7. A body of mass (4m) is lying in x-y plane at rest. It suddenly explodes into three pieces. Two pieces, each of mass (m) move perpendicular to each other with equal speeds (v). The total kinetic energy generated due to explosion is :

(1) $m v^2$

(2) $\frac{3}{2} m v^2$

(3) $2 m v^2$

(4) $4 m v^2$

4m द्रव्यमान का एक पिंड (वस्तु) x-y समतल पर विराम अवस्था में है। इसमें अचानक विस्फोट होने पर, इसके दो भाग, (जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 'm' है) एक ही वेग ' v ' से एक दूसरे की लम्बवत् दिशा में गति करने लगते हैं। तो, विस्फोट के कारण जनित कुल गतिज ऊर्जा का मान होगा :

(1) $m v^2$


(2) $\frac{3}{2} m v^2$

(3) $2 m v^2$

(4) $4 m v^2$

Ans. (2)

Sol.



$$p_i = p_f$$

$$\vec{O} = m v \hat{i} + m v \hat{j} + 2m \vec{v}$$

$$\vec{v} = -\frac{v}{2} \hat{i} - \frac{v}{2} \hat{j}$$

$$|\vec{v}| = \frac{v}{\sqrt{2}}$$

$$KE = \frac{v}{2} m v^2 + \frac{v}{2} m v^2 + \frac{v}{2} 2m \left(\frac{v}{\sqrt{2}} \right)^2 = m v^2 + \frac{m v^2}{2} = \frac{3}{2} m v^2$$


8. The oscillation of a body on a smooth horizontal surface is represented by the equation,

$$X = A \cos(\omega t)$$

where X = displacement at time t

ω = frequency of oscillation

Which one of the following graph shows correctly the variation 'a' with 't' ?



Here a = acceleration at time t

T = time period

किसी पिंड (वस्तु) के चिकने क्षैतिज पृष्ठ (सतह) पर दोलनों के समीकरण को


$$X = A \cos(\omega t)$$

निरूपित किया जाता है, जहाँ

$$X = t$$
 समय पर विस्थापन

ω = दोलनों की आवृत्ति

तो ' t ' के साथ 'a' के विचलन (परिवर्तन) को कौन सा ग्राफ (आलेख) सही रूप में दर्शाता है ?



यहाँ a = समय t पर त्वरण

T = आवृत्तकाल

Ans. (3)

Sol. $X = A \cos \omega t$

Educational Material Downloaded from <http://www.evidyarthi.in/>

$$v = A \omega \sin \omega t$$

Get CBSE Notes, Video Tutorials, Test Papers & Sample Papers

$$a = -A \omega^2 \cos \omega t$$


9. A solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 m is free to rotate about horizontal axis. A massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolutions s^{-2}

50 kg द्रव्यमान तथा 0.5 m त्रिज्या का एक ठोस सिलिंडर (बैलन) अपनी क्षैतिज अक्ष के परितः स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सकता है। इस पर एक भारहीन रस्सी लपेटी गई है, जिसका एक सिरा इस सिलिंडर से जुड़ा है और दूसरा सिरा मुक्त सिरा मुक्त रूप से लटक रहा है। रस्सी में कितने तनाव लगाया जाय कि कोणीय त्वरण $2 \text{ परिक्रमण से}^{-2}$ हो ?

(1) 25 N (2) 50 N (3) 78.5 N (4) 157 N

Ans. (4)

$$\text{Sol. } (T) \times (R) = \left(\frac{MR^2}{2} \right) (\alpha)$$



$$T = \left(\frac{MR}{2} \right) (\alpha) = \left(\frac{50 \times 0.5}{2} \right) (2 \times 2\pi) = 157N$$

10. The ratio of the acceleration for a solid sphere (mass 'm' and radius 'R') rolling down an incline of angle ' θ ' without slipping and slipping down the incline without rolling is :

(1) 5 : 7 (2) 2 : 3 (3) 2 : 5 (4) 7 : 5

किसी नत समतल का आनत कोण 'θ' है इस पर ' m ' द्रव्यमान तथा ' R ' त्रिज्या का एक ठोस गोला ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार गति करता है कि प्रथम दशा में गति पूर्णतः लोटनिक है और सरकी (फिसलन) नहीं है, तथा दूसरी दिशा में गति केवल सरकी है और लोटनिक नहीं है। तो, इन दोनों दशाओं में गोले के त्वरणों का अनुपात होगा :

(1) 5 : 7 (2) 2 : 3 (3) 2 : 5 (4) 7 : 5

Ans. (1)

$$\text{Sol. } a_1 = \frac{g \sin \theta}{1 + \frac{I}{MR^2}}$$

$$a_1 = \frac{g \sin \theta}{1 + \frac{2}{5} MR^2} = \frac{5}{7} g \sin \theta$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{5}{7}$$

11. A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would earth (mass = 5.98×10^{24} kg) have to be compressed to be a black hole ?

(1) 10^{-9}m (2) 10^{-6}m (3) 10^{-2}m (4) 100 m

कृष्ण विवर (ब्लैक होल) एक ऐसा पिंड है, जिसका गुरुत्वायी क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। पृथ्वी को लगभग कितनी त्रिज्या तक संपीड़ित किया जाये कि वह कृष्ण विवर बन जायें ? (पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98×10^{24} kg)

(1) 10^{-9} m (2) 10^{-6} m (3) 10^{-2} m (4) 10 m

Ans. (3)

Sol. Light is unable to escape so

प्रकाश पलायन न कर सके





$$V_e = C$$

$$\sqrt{\frac{2GM}{R}} = 3 \times 10^8$$





$$\Rightarrow \sqrt{\frac{2 \times \left(\frac{20}{3} \times 10^{-11}\right)(6 \times 10^{24})}{R}} = 3 \times 10^8$$

$$\text{get } R \approx 9 \text{ mm} \approx 10^{-2} \text{ m}$$

- 12.** Dependence of intensity of gravitational field (E) of earth with distance (r) from centre of earth is correctly represented by :



पृथ्वी के गुरुत्वायी क्षेत्र की तीव्रता (E) की, पृथ्वी के केन्द्र से दूरी (r) पर, निर्भरता को कौन सा ग्राफ सही प्रकार निरूपित करता है ?



Ans. (1)

$$\text{Sol. } E = -\frac{GM}{R^3} \times \vec{r} \quad (\text{if } r < R)$$

$$E = -\frac{GM}{r^3} \times \vec{r} \quad (\text{if } r \geq R)$$

- 13.** Copper of fixed volume 'V' is drawn into wire of length ' ℓ '. When this wire is subjected to a constant force 'F', the extension produced in the wire is ' $\Delta\ell$ '. Which of the following graph is a straight line?

- (1) $\Delta\ell$ versus $1/\ell$ (2) $\Delta\ell$ versus ℓ^2 (3) $\Delta\ell$ versus $1/\ell^2$ (4) $\Delta\ell$ versus ℓ

नियत आयतन 'V' के ताँबे से ' ℓ ' लम्बाई का एक तार बनाया गया है। इस तार पर एक नियत (अचर) बल 'F' लगाने से, इस लम्बाई में ' $\Delta\ell$ ' वृद्धि हो जाती है, तो निम्नांकित में से कौन सा ग्राफ सरल रेखा होगा?

- (1) $\Delta\ell$ तथा $1/\ell$ के बीच (2) $\Delta\ell$ तथा ℓ^2 के बीच (3) $\Delta\ell$ तथा $1/\ell^2$ के बीच (4) $\Delta\ell$ तथा ℓ के बीच

Ans. (2)

Sol. $V = A\ell$

$$Y = \frac{F/A}{\frac{\Delta\ell}{\ell}}$$

$$\frac{Y\Delta\ell}{\ell} = \frac{F}{A}$$

$$\Delta\ell = \frac{F\ell}{YA} = \frac{F}{Y} \cdot \frac{\ell}{V}$$

$$\Delta\ell = \frac{F}{YV} \ell^2$$

$$\Delta\ell \propto \ell^2$$

- 14.** A certain number of spherical drops of a liquid of radius 'r' coalesce to form a single drop of radius 'R' and volume 'V'. If 'T' is the surface tension of the liquid then:

- (1) Energy = $4VT \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ is released. (2) Energy = $3VT \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right)$ is released.

- (3) Energy = $3VT \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ is released. (4) Energy is neither released nor absorbed.

किसी द्रव की 'r' त्रिज्या की गोलाकार कुछ बूँदें मिलकर 'R' त्रिज्या तथा 'V' आयतन की एक बूँद बन जाती है, यदि द्रव का पृष्ठ तनाव 'T' हो तो, इस प्रक्रम में :

- (1) $4VT \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ ऊर्जा मुक्त होगी।

- (2) $3VT \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right)$ ऊर्जा अवशोषित होगी।

- (3) $3VT \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ ऊर्जा मुक्त होगी।

- (4) न तो ऊर्जा मुक्त होगी न ही अवशोषित होगी।

Ans. (3)

Sol. $\Delta U = (ST)(\Delta A)$

$$A(\text{initial प्रारम्भिक}) = (4\pi r^2)n$$

$$A(\text{final अन्तिम}) = 4\pi R^2$$

$$\Delta A = (4\pi r^2)n - 4\pi R^2$$

$$\left(\frac{4}{3}\pi r^3 \right)n = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$n = \frac{R^3}{r^3}$$

$$\Delta A = 4\pi \left[\frac{R^3}{r^3} \cdot r^2 - R^2 \right] = 4\pi \left[\frac{R^3}{r} - \frac{R^3}{R} \right] = \left(\frac{4\pi R^3}{3} \right) 3 \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right]$$

$$\Delta A = 3V \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right]$$

17. A monoatomic gas at a pressure P , having a volume V expands isothermally to a volume $2V$ and then adiabatically to a volume $16V$. The final pressure of the gas is : (take $\gamma = 5/3$)
 किसी एक परमाणुक गैस का दाब P और आयतन V हैं। इसमें पहले समतापीय रूप से $2V$ आयतन तक और फिर रुद्धोष्म रूप

Ans.

Sol. Isothermally समतापीय प्रक्रिया से $PV = P_1 V_1$

$$P_1 = \frac{P}{2}$$

Adiabatically रुद्धोष्म प्रक्रिया

$$\frac{P}{2} (2V)^\gamma = P_f (16V)^\gamma$$


$$P_f = \frac{P}{2} \left(\frac{1}{2^3} \right)^{\frac{5}{3}}$$

$$P_f = \frac{P}{2} \left(\frac{1}{2^3} \right)^{\frac{5}{3}} = \frac{P}{(2)(2)^5}$$

$$P_f = \frac{p}{64}$$

18. A thermodynamics system undergoes cyclic process ABCDA as shown in Fig. The work done by the system in the cycle is:

कोई ऊषागतिक निकाय आरेख में दर्शाये गये अनुसार चक्रिक प्रक्रम ABCDA पर चलता है। तो, निकाय द्वारा इस चक्र में किया गया कार्य होगा:



- (1) $P_0 V_0$ (2) $2P_0 V_0$ (3) $\frac{P_0 V_0}{2}$ (4) Zero शून्य

Ans.

(4)

Sol. Work done in process ODA = $\frac{1}{2} \times P_0 \times V_0$
 While work done in the process OBC = $-\frac{1}{2} P_0 V_0$

Sol. ODA प्रक्रिया में किया गया कार्य = $1/2 \times P_0 \times V_0$

OBC प्रक्रिया में किया गया कार्य = $-1/2 P_o V_o$

कल कार्य = 0

- 19.** The mean free path of molecules of a gas (radius 'r') is inversely proportional to:
यदि किसी गैस के अण्डों की विज्या 'r' हो तो उनका माध्य-मुक्त-पथ व्यक्तमानपात्री होता है।

- (1) r^3 (2) r^2 (3) r (4) \sqrt{r}

- Ans.** (2)

Sol. Mean free path औसत स्वतंत्र पथ $\ell = \frac{1}{\sqrt{2}nd^2}$

So अतः $\ell \propto \frac{1}{d^2}$ Educational Material Downloaded from <http://www.evidyarthi.in/>
 Get CBSE Notes, Video Tutorials, Test Papers & Sample Papers

20. If n_1 , n_2 and n_3 are the fundamental frequencies of three segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is given by:

यदि किसी रस्सी को तीन खंडों में विभाजित करने पर उन खंडों की मूल आवृत्तियों क्रमशः n_1 , n_2 तथा n_3 हों तो इस रस्सी की प्रारंभिक मूल आवृत्ति n के लिए संबंध होगा:


$$(1) \frac{1}{n} = \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3}$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n_1}} + \frac{1}{\sqrt{n_2}} + \frac{1}{\sqrt{n_3}}$$

$$(3) \sqrt{n} = \sqrt{n_1} + \sqrt{n_2} + \sqrt{n_3}$$

$$(4) n = n_1 + n_2 + n_3$$

Sol.



$$n_1 = \frac{1}{2l_1} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$n_2 = \frac{1}{2l_2} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$n_3 = \frac{1}{2l_3} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$n = \frac{1}{2\ell} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$\ell = l_1 + l_2 + l_3$$

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3}$$

21. The number of possible natural oscillations of air column in a pipe closed at one end of length 85 cm whose frequencies lies below 1250 Hz are: (velocity of sound = 340 ms^{-1})

यदि वायु में ध्वनि का वेग 340 ms^{-1} हो तो, 1250 Hz से कम आवृत्ति वाले 85 cm लम्बे एक सिरे पर बन्द नलिका (पाइप) में वायु-स्तर्भ के संभव प्राकृतिक दोलनों की संख्या होगी:

(1) 4

(2) 5

(3) 7

(4) 6

Ans. (4)

Sol. Fundamental frequency of a closed organ pipe is $f_1 = \frac{V}{4\ell} = \frac{340}{4 \times 0.85} = 100 \text{ Hz}$

The natural frequencies of the organ pipe will be $f = 100 \text{ Hz}, 300 \text{ Hz}, 500 \text{ Hz}, 700 \text{ Hz}, 900 \text{ Hz}, 1100 \text{ Hz}$ which are below 1250 Hz

Sol. बंद ऑर्गन पाइप की मूल प्राकृतिक आवृत्ति $f_1 = \frac{V}{4\ell} = \frac{340}{4 \times 0.85} = 100 \text{ Hz}$

अतः इस आर्गन पाइप की वे प्राकृति आवृत्तियां जो 1250 Hz से कम हो $f = 100 \text{ Hz}, 300 \text{ Hz}, 500 \text{ Hz}, 700 \text{ Hz}, 900 \text{ Hz}, 1100 \text{ Hz}$,


22. A speeding motorcyclist sees traffic jam ahead of him. He slows down to 36km/hour. He finds that traffic has eased and a car moving ahead of him at 18 km/hour is honking at a frequency of 1392 Hz. If the speed of sound is 343 m/s, the frequency of the honk as heard by him will be:

ट्रैफिक जैम के कारण एक मोटरसाइकिल चालक अपनी चाल कम करते हुए उसे 36km प्रतिघंटे कर देता है। ट्रैफिक कम होने पर, उससे आगे 18 km प्रतिघंटे की चाल से चलती हुई एक कार, 1392 Hz आवृत्ति का हॉर्न बजाती है। यदि ध्वनि की चाल 343 m/s है तो, मोटरसाइकिल पर तो इसको सुना जाने वाली आवृत्ति सापेक्षी

(1) 1332 Hz (2) 1372 Hz (3) 1412 Hz (4) 1454 Hz

Ans. (3)

Sol.



Apparent frequency heard by the observer is






प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आभासी आवृति

$$f' = f_0 \left(\frac{V - V_0}{V - V_s} \right)$$

$$f' = (1392) \left(\frac{343 - (-10)}{343 - (-5)} \right) = 1412 \text{ Hz}$$



23. Two thin dielectric slabs of dielectric constants K_1 and K_2 ($K_1 < K_2$) are inserted between plates of a parallel plate capacitor, as shown in the figure. The variation of electric field 'E' between the plates with distance 'd' as measured from plate P is correctly shown by:

एक समान्तर पट्टिका (प्लेट) संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में, K_1 तथा K_2 ($K_1 < K_2$) परावैद्युतांक के दो पतले स्लैब (पट्टिका) चित्र में दर्शाये गये अनुसार रखी गई हैं। संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र का मान 'E' में, पट्टिका P से दूरी 'd' के साथ परिवर्तन को कौनसा ग्राफ सही रूप से दर्शाता है?



Ans. (3)

Sol.



- 24.** A conducting sphere of radius R is given a charge Q. The electric potential and the electric field at the centre of the sphere respectively are:

एक चालक गोले की त्रिज्या R है। इस पर Q आवेश है। इस गोले के केन्द्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र क्रमशः होंगे:

- (1) Zero and $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ (2) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ and Zero (3) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ and $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ (4) Both are zero.

Ans. (2)

Sol. For a conducting sphere
Electric field at centre = 0

$$\text{Potential at centre} = \frac{KQ}{R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Sol. चालक गोले के लिए

केन्द्र पर विद्युत क्षेत्र = 0

$$\text{केन्द्र पर विभव} = \frac{KQ}{R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

- 25.** In a region the potential is represented by $V(x, y, z) = 6x - 8xy - 8y + 6yz$, where V is in volts and x, y, z, are in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at point (1, 1, 1) is :

किसी क्षेत्र में विभव को, $V(x, y, z) = 6x - 8xy - 8y + 6yz$ से, निरूपित किया जाता है, जहाँ V, वोल्ट में तथा x, y, z, मीटर में हैं। तो बिन्दु (1, 1, 1) पर स्थित 2 कूलॉम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होगा :

- (1) $6\sqrt{5}$ N (2) 30N (3) 24N (4) $4\sqrt{35}$ N

Ans. (4)

Sol. $V_{(x, y, z)} = 6x - 8xy - 8y + 6yz$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -6 + 8y$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = 8x + 8 - 6z$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -6y$$

$$\vec{E} = (-6 + 8y)\hat{i} + (8x + 8 - 6z)\hat{j} - 6y\hat{k}$$

$$\vec{E}_{(1, 1, 1)} = 2\hat{i} + 10\hat{j} - 6\hat{k}$$

$$|\vec{E}| = 2\sqrt{35} \text{ NC}^{-1}$$

$$F = qE = 2 \times 2\sqrt{35} = 4\sqrt{35} \text{ N}$$

- 26.** Two cities are 150 km apart. Electric power is sent from one city to another city through copper wires. The fall of potential per km is 8 volt and the average resistance per km is 0.5Ω . The power loss in the wire is:

एक नगर से विद्युत शक्ति को, 150 km दूर स्थित एक अन्य नगर तक, ताँबे के तारों से भेजा जाता है। प्रतिकिलोमीटर विभव-पात

8 वोल्ट तथा प्रतिकिलोमीटर औसत प्रतिरोध 0.5Ω है, तो तार में शक्ति-क्षय होगा:

- (1) 19.2 W (2) 19.2 kW (3) 19.2 J (4) 12.2 kW

Ans. (2)


Sol. Total voltage drop = $150 \times 8 = V$
total resistance of wire $R = 0.5 \times 150$

$$\text{Power loss} = \frac{V^2}{R} = \frac{(150 \times 8)^2}{0.5 \times 150} = 19.2 \text{ KW}$$

कुल विभव पतन = $150 \times 8 = V$

तार का कुल प्रतिरोध $R = 0.5 \times 150$

- 27.** The resistance in the two arms of the meter bridge are 5Ω and $R\Omega$, respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is at $1.6\ell_1$. The resistance 'R' is :
 किसी मीटर-सेतु की दो भुजाओं का प्रतिरोध 5Ω तथा $R\Omega$ हैं। जब प्रतिरोध R से समान्तर (पाश्व) क्रम में R ओम का एक अन्य प्रतिरोध (शन्ट) लगा दिया जाता है तो नया संतुलन बिन्दु $1.6\ell_1$ पर प्राप्त होता है। प्रतिरोध 'R' का मान होगा :



(1) 10Ω

(2) 15Ω

(3) 20Ω

(4) 25Ω

Ans. (2)

$$\text{Sol. } \frac{5}{R} = \frac{\ell_1}{100 - \ell_1}$$

$$\frac{5}{R/2} = \frac{1.6\ell_1}{100 - 1.6\ell_1}$$

Solving $\ell_1 = 25$ cm and $R = 15\Omega$

हल करने पर $\ell_1 = 25$ cm तथा $R = 15\Omega$

- 28.** A potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. The main battery, used across the potentiometer wire, has an emf of 2.0 V and a negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 m long. When the resistance, R , connected across the given cell, has values of .

(i) infinity (ii) 9.5Ω

The 'balancing lengths, on the potentiometer wire are found to be 3m and 2.85 m , respectively.

The value of internal resistance of the cell is :

किसी दिये गये सैल का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिये प्रयुक्त एक विभवमापी के तार की लम्बाई 4m है और इसके सिरों से जुड़ी मुख्य बैटरी का विद्युत वाहक बल (इ.एम.एफ) 2.0 V है। बैटरी का आन्तरिक प्रतिरोध नगण्य है। दिये गये सैल के सिरों पर जोड़े गये प्रतिरोधक R का प्रतिरोध:

(i) अनन्त (ii) 9.5Ω

रखने पर विभवमापी की 'संतुलन लम्बाई' क्रमशः 3m तथा 2.85 m है।

तो, सैल का आन्तरिक प्रतिरोध होगा:

(1) 0.25Ω

(2) 0.95Ω

(3) 0.5Ω

(4) 0.75Ω

Ans. (3)


Sol. Internal resistance of the unknown cell is

$$r = \left(\frac{\ell_1}{\ell_2} - 1 \right) R = \left(\frac{3}{2.85} - 1 \right) (9.5\Omega) = 0.5\Omega$$

अज्ञात सैल का आन्तरिक प्रतिरोध

$$r = \left(\frac{\ell_1}{\ell_2} - 1 \right) R = \left(\frac{3}{2.85} - 1 \right) (9.5\Omega) = 0.5\Omega$$

29. Following figures show the arrangement of bar magnets in different configurations. Each magnet has magnetic dipole \vec{m} . Which configuration has highest net magnetic dipole moment ?




(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

आरेख में दंड (छड़िया) चुम्बकों की विन्यास दर्शाये गये हैं। प्रत्येक चुम्बक की द्विधंव आघूर्ण \vec{m} है। किस विन्यास में नेट चुम्बकीय द्विधंव आघूर्ण का मान अधिकतम होगा?



(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

Ans. (3)

Sol. (a) $M_{\text{net}} = \sqrt{m^2 + m^2 + 2mm\cos 90^\circ} = \sqrt{2}m$

(b) $M_{\text{net}} = m - m = 0$

(c) $M_{\text{net}} = \sqrt{m^2 + m^2 + 2mm\cos 30^\circ} = m\sqrt{2 + \sqrt{3}}$

(d) $M_{\text{net}} = \sqrt{m^2 + m^2 + 2mm\cos 60^\circ} = \sqrt{3}m$

is configuration (c) θ is least so M_{net} is maximum.

विन्यास (c) में θ न्यूनतम है अतः M_{net} अधिकतम होगा।

30. In an ammeter 0.2% of main current passes through the galvanometer. If resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter will be :

(1) $\frac{1}{499}G$

(2) $\frac{499}{500}G$

(3) $\frac{1}{500}G$

(4) $\frac{500}{499}G$

किसी एमीटर में मुख्य धारा का 0.2% भाग गैल्वेनोमीटर की कुंडली से गुजरता है। यदि गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध G है तो, इस एमीटर का प्रतिरोध होगा :

(1) $\frac{1}{499}G$


(2) $\frac{499}{500}G$

(3) $\frac{1}{500}G$

(4) $\frac{500}{499}G$

Ans. (3)

Sol.



$$\text{as } (G) \text{ and the shunt are in parallel combination } i_g R_g = i_s R_s \Rightarrow \left(\frac{i}{500}\right)(G) = \left(\frac{499i}{500}\right)(S)$$

$$\text{चूंकि } (G) \text{ और शंट समानान्तर क्रम में है अतः } i_g R_g = i_s R_s \Rightarrow \left(\frac{i}{500}\right)(G) = \left(\frac{499i}{500}\right)(S)$$

$$\Rightarrow S = \frac{G}{499}$$

Equivalent resistance of the ammeter

अमीटर का तुल्य प्रतिरोध

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{G} + \frac{1}{\frac{G}{499}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{G}{500}$$

- 31.** Two identical long conducting wires AOB and COD are placed at right angle to each other, with one above other such that 'O' is their common point for the two. The wires carry I_1 and I_2 currents, respectively. Point 'P' is lying at distance 'd' from 'O' along a direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at the point 'P' will be :


- (1) $\frac{\mu_0}{2\pi d} \left(\frac{I_1}{I_2} \right)$ (2) $\frac{\mu_0}{2\pi d} (I_1 + I_2)$ (3) $\frac{\mu_0}{2\pi d} (I_1^2 - I_2^2)$ (4) $\frac{\mu_0}{2\pi d} (I_1^2 + I_2^2)^{1/2}$

दो सर्वसम (एक से) लम्बे चालक तार AOB तथा COD एक दूसरे के ऊपर आपस में लम्बवत् रखे गये हैं, और 'O' बिन्दु पर एक दूसरे को काटते हैं। इनसे क्रमशः I_1 तथा I_2 धारायें प्रवाहित हो रही हैं। बिन्दु 'O' तथा 'd' दूरी पर दोनों तारों के तल के लम्बवत् दिशा के अनुदिश स्थित किसी बिन्दु 'P' पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान होगा :

- (1) $\frac{\mu_0}{2\pi d} \left(\frac{I_1}{I_2} \right)$ (2) $\frac{\mu_0}{2\pi d} (I_1 + I_2)$ (3) $\frac{\mu_0}{2\pi d} (I_1^2 - I_2^2)$ (4) $\frac{\mu_0}{2\pi d} (I_1^2 + I_2^2)^{1/2}$

Ans. (4)

Sol.




$$\text{तार (1) के कारण चुम्बकीय क्षेत्र } \vec{B}_1 = \left(\frac{\mu_0 i_1}{2\pi d} \right) \hat{i}$$

$$\vec{B} \text{ due to wire (2)} \vec{B}_2 = \left(\frac{\mu_0 i_2}{2\pi d} \right) (-\hat{j})$$

$$\text{तार (2) के कारण चुम्बकीय क्षेत्र } \vec{B}_2 = \left(\frac{\mu_0 i_2}{2\pi d} \right) (-\hat{j})$$

$$|B_{\text{net}}| = \frac{\mu_0}{2\pi d} \sqrt{i_1^2 + i_2^2}$$

32. A thin semicircular conducting the ring (PQR) of radius 'r' is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B , as shown in figure. The potential difference developed across the ring when its speed is v , is :



(1) Zero

(3) $\pi r B v$ and R is at higher potential

'r' त्रिज्या की एक पतली अर्धवृत्ताकार चालक रिंग (वलय) PQR किसी क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र B में गिर रही है। गिरते समय इसका समतल आरेख में दर्शाये गये अनुसार ऊर्ध्वाधर रहता है। जब गिरते हुई रिंग की चाल v है तो, इसके दो सिरों के बीच विकसित विभवांतर होगा :

(2) $Bv\pi r^2/2$ and P is at higher potential

(4) $2rBv$ and R is at higher potential

(1) शून्य


(3) $\pi r B v$ तथा R का विभव अधिक (उच्च) होगा।

(2) $Bv\pi r^2/2$ तथा P उच्च विभव पर होगा।

(4) $2rBv$ तथा R का विभव अधिक (उच्च) होगा।

Ans. (4)

Sol.



$$\text{emf} = VB\ell_{\text{eq}} = VB(2R) \text{ where R is at higher potential and P is at lower potential}$$

$$\text{emf} = VB\ell_{\text{eq}} = VB(2R) \text{ जहाँ बिन्दु R उच्च विभव तथा P निम्न विभव पर होगा।}$$

33. A transformer having efficiency of 90% is working on 200 V and 3 kW power supply. If the current in the secondary coil is 6 A the voltage across the secondary coil and the current in the primary coil respectively are :
 (1) 300 V, 15 A (2) 450 V, 15 A (3) 450 V, 13.5 A (4) 600 V, 15A

एक ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 90% है, यह 200 V व 3 kW की पावर सप्लाई पर काम कर रहा है। यदि द्वितीयक कुण्डली से 6 A की धारा प्रवाहित हो रही है तो, द्वितीयक कुण्डली के सिरों के बीच विभवान्तर तथा प्राथमिक कुण्डली में विद्युत धारा का मान क्रमशः होगा :

- (1) 300 V, 15 A (2) 450 V, 15 A (3) 450 V, 13.5 A (4) 600 V, 15A

Ans. (2)

Sol. Current in primary coil = $\frac{P}{V} = \frac{3000}{200} = 15A$

प्राथमिक कुण्डली में धारा = $\frac{P}{V} = \frac{3000}{200} = 15A$

$P_{out} = \eta \% \text{ of } P_{in}$

$V_2 i_2 = \frac{90}{100} \times (3000)$

(v₂) (6) = 2700

V₂ = 450 volt

34. Light with an energy flux of $25 \times 10^4 \text{ Wm}^{-2}$ falls on a perfectly reflecting surface at normal incidence. If the surface area is 15 cm^2 , the average force exerted on the surface is :

- (1) $1.25 \times 10^{-6} \text{ N}$ (2) $2.50 \times 10^{-6} \text{ N}$ (3) $1.20 \times 10^{-6} \text{ N}$ (4) $3.0 \times 10^{-6} \text{ N}$

$25 \times 10^4 \text{ Wm}^{-2}$ ऊर्जा फ्लक्स का प्रकाश किसी पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ (सतह) पर लम्बवत् आपतित होता है। यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल 15 cm^2 हो तो, पृष्ठ पर आरोपित औसत बल होगा :

- (1) $1.25 \times 10^{-6} \text{ N}$ (2) $2.50 \times 10^{-6} \text{ N}$ (3) $1.20 \times 10^{-6} \text{ N}$ (4) $3.0 \times 10^{-6} \text{ N}$

Ans. (2)

Sol. $F = \frac{2IA}{C} = \frac{2(25 \times 10^4)(15 \times 10^{-4})}{3 \times 10^8} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ N}$

35. A beam of light of $\lambda = 600 \text{ nm}$ from a distant source falls on a single slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 m away. The distance between first dark fringes on either side of the central bright fringe is :

- (1) 1.2 cm (2) 1.2 mm (3) 2.4 cm (4) 2.4 mm

दूर स्थित किसी स्रोत से आता हुआ, $\lambda = 600 \text{ nm}$ का प्रकाश पुंज, 1 mm चौड़ी झिरी पर आपतित होता है। इससे उत्पन्न विवर्तन पैटर्न को झिरी से 2 m दूर स्थित पर्दे पर देखा जाता है तो, केन्द्रीय दीप्त फ्रिंज के दोनों ओर की प्रथम अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी होगी :

- (1) 1.2 cm (2) 1.2 mm (3) 2.4 cm (4) 2.4 mm

Ans. (4)

Sol. Angular width of 1st maxima

$$2\theta = \frac{2\lambda}{a}$$

linear width of 1st maxima = (D) (2θ) = $\frac{2\lambda D}{a} = \frac{2 \times (600 \times 10^{-9})(2)}{1 \times 10^{-3}} = 2.4 \text{ mm}$

Sol. 1st उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई

$$2\theta = \frac{2\lambda}{a}$$

36. In the Young's double slit experiment the intensity of light at a point on the screen where the path difference is λ is K, (λ being the wave length of light used). The intensity at a point where the path difference is $\lambda/4$, will be :

- (1) K (2) $K/4$ (3) $K/2$ (4) zero

यंग के द्वि-शिरी प्रयोग में, पर्दे के किसी बिन्दु पर λ पथान्तर होने से, वहाँ प्रकाश की तीव्रता K है, (λ प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है) | तो, पर्दे के उस बिन्दु पर जहाँ पथान्तर $\lambda/4$ है, तीव्रता होगी :

- (1) K (2) $K/4$ (3) $K/2$ (4) शून्य

Ans. (3)

Sol. $I_{\max} 4 I_0 = k$

$$\text{at the other point, path difference} = \frac{\lambda}{4}$$

$$\text{so phase difference } \theta = k\Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$I^l = I_0 + I_0 + 2\sqrt{I_0} \sqrt{I_0} \cos \frac{\pi}{2}$$

$$I^l = 2I_0 = \frac{K}{2}$$

Sol. $I_{\max} 4 I_0 = k$

$$\text{दूसरे बिन्दु पर पथान्तर} = \frac{\lambda}{4}$$

$$\text{अतः कलान्तर } \theta = k\Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$I^l = I_0 + I_0 + 2\sqrt{I_0} \sqrt{I_0} \cos \frac{\pi}{2}$$

$$I^l = 2I_0 = \frac{K}{2}$$

37. If the focal length of objective lens is increased then magnifying power of :

- (1) microscope will increase but that of telescope decrease
(2) microscope and telescope both will increase
(3) microscope and telescope both will decrease
(4) microscope will decrease but that of telescope will increase.

यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ दिया जाये तो :

- (1) सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ जायेगी तथा दूरदर्शक की कम हो जायेगी।
(2) सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शक दोनों की आवर्धन क्षमता बढ़ेगी।
(3) सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शक दोनों की आवर्धन क्षमता कम हो जायेगी।
(4) सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होगी तथा दूरदर्शक की बढ़ जायेगी।

Ans. (4)

Sol. M.P. of a microscope = $\left(\frac{L}{f_o} \right) \left(\frac{D}{f_e} \right)$

if $f_o \uparrow \Rightarrow$ M.P. of the microscope will decrease

$$\text{M.P. of telescope} = \frac{f_o}{f_e}$$

if $f_o \uparrow \Rightarrow$ M.O. of telescope will increase.

हल. सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता = $\left(\frac{L}{f_o} \right) \left(\frac{D}{f_e} \right)$

यदि $f_o \uparrow \Rightarrow$ तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घटेगी

$$\text{दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता} = \frac{f_o}{f_e}$$

38. The angle of a prism is 'A'. One of its refracting surfaces is silvered. Light rays falling at an angle of incidence $2A$ on the first surface returns back through the same path after suffering reflection at the silvered surface. The refractive index μ , of the prism is :


- (1) $2\sin A$ (2) $2 \cos A$ (3) $\frac{1}{2} \cos A$ (4) $\tan A$

किसी प्रिज्म का कोण 'A' है। इस प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ (फलक) रजतित कर परावर्तक बना दिया गया है, इसके पहले पृष्ठ पर, $2A$ कोण पर आपतित प्रकाश की किरणें, रजतित पृष्ठ से परवर्तन के पश्चात् अपने मार्ग पर वापस आती हैं। तो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ होगा :

- (1) $2\sin A$ (2) $2 \cos A$ (3) $\frac{1}{2} \cos A$ (4) $\tan A$

Ans. (2)

Sol.




To retrace its path light rays should fall normally on the reflecting surface. So

$$r_2 = 0 \\ \Rightarrow r_1 = A - r_2 \Rightarrow r_1 = A$$

Now applying snell rule between incident ray and refracted ray.

$$(1) \sin(2A) = n \sin(A) \Rightarrow 2 \sin A \cos A = n \sin A \\ \Rightarrow n = 2 \cos A$$

हल.



पथ को दोहराने के लिए किरण परावर्तक सतह के लम्बवत् टकरानी चाहिए। अतः

$$r_2 = 0 \\ \Rightarrow r_1 = A - r_2 \Rightarrow r_1 = A$$

आपतित और परावर्तित किरण के बीच स्नेल (snell) का नियत लगाने पर

$$(1) \sin(2A) = n \sin(A) \Rightarrow 2 \sin A \cos A = n \sin A \\ \Rightarrow n = 2 \cos A$$

39. When the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectrons emitted from a metal surface increased from 0.5 eV to 0.8 eV. The work function of the metal is :

- (1) 0.65 eV (2) 1.0 eV (3) 1.3 eV (4) 1.5 eV

धातु के किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरणों की ऊर्जा को 20% बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित फोटो इलैक्ट्रॉनों (प्रकाश विद्युत इलैक्ट्रॉनों) की गतिज ऊर्जा 0.5 eV से बढ़कर 0.8 eV हो जाती है। तो, इस धातु का कार्य फलन है :

- (1) 0.65 eV (2) 1.0 eV (3) 1.3 eV (4) 1.5 eV

Ans. (2)

Sol. $KE_{max} = h\nu - \psi$

$$0.5 \text{ eV} = h\nu - \psi \quad \dots(1)$$

$$0.8 \text{ eV} = 1.2 h\nu - \psi \quad \dots(2)$$

solving हल करने पर $\psi = 1 \text{ eV}$ Educational Material Downloaded from <http://www.evidyarthi.in/>
Get CBSE Notes, Video Tutorials, Test Papers & Sample Papers

- 40.** If the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, the percentage change in the de-Broglie wavelength of the particle is :

यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा को उसके प्रारम्भिक मान का 16 गुना कर दिया जाय तो, संगत दे-ब्राह्मणी तरंगों की तरंगदैर्घ्य में प्रतिशत परिवर्तन होगा :

Ans. (2)

Sol. KE = 16 times \Rightarrow V = 4 times

\Rightarrow De-broglie wavelength $\left(\lambda = \frac{h}{mv} \right)$ = one forth $\left(\lambda_0 \rightarrow \frac{\lambda_0}{4} \right)$. So De-Broglie wave will decrease by 75%

$$\text{हल. } KE = 16 \text{ गुना} \Rightarrow V = 4 \text{ गुना}$$

$$\Rightarrow \text{डी-ब्रोगली तरंगदैर्ध्य } \left(\lambda = \frac{\hbar}{mV} \right) \text{ एक चौथाई } \left(\lambda_0 \rightarrow \frac{\lambda_0}{4} \right) \text{ है। अतः डी-ब्रोगली तरंगदैर्ध्य } 75\% \text{ कम हो जायेगी।}$$

41. Hydrogen atom in ground state is excited by a monochromatic radiation of $\lambda = 975 \text{ \AA}$. Number of spectral lines in the resulting spectrum emitted will be :

निम्नतम ऊर्जा स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु को, $\lambda = 975 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य के एकवर्णी प्रकाश से उत्तेजित किया जाता है। तो, परिणाम स्पैक्ट्रम में स्पैक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी :

Ans. (3)

Sol. Energy of the photon $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240}{97.5} = 12.75 \text{ eV}$

This energy is equal to energy gap between $n = 1$ (-13.6) and $n = 4$ (-0.85). So by this energy, the electron

will excite from $n = 1$ to $n = 4$. When the electron will fall back, numbers of spectral lines emitted = $\frac{n(n - 1)}{2}$

$$= \frac{(4)(4-1)}{2} = 6$$

$$\text{हल.} \quad \text{फोटॉन की ऊर्जा } E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240}{97.5} = 12.75 \text{ eV}$$

यह कृज्ञा $n = 1$ (-13, 6) तथा $n = 4$ (-0, 85) के कृज्ञान्तर के बराबर है। अतः इस कृज्ञा से डलेक्टोन $n = 1$ से $n = 4$ में उत्तेजित

होगा जब इलेक्ट्रॉन पुनः $n = 1$ में आये गा तब $\frac{n(n-1)}{2}$ स्पेक्ट्रम रेखाएँ उत्सर्जित करेगा।

$$= \frac{(4)(4-1)}{2} = 6$$

42. The Binding energy per nucleon of ${}^7_3\text{Li}$ and ${}^4_2\text{He}$ nucleon are 5.60 MeV and 7.06 MeV, respectively. In the nuclear reaction ${}^7_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^4_2\text{He} + Q$, the value of energy Q released is :


(1) 19.6 MeV (2) -2.4 MeV (3) 8.4 MeV (4) 17.3 MeV

जी तथा ${}^4\text{He}$ की प्रति न्युक्लिओन बंधन ऊर्जा कमशः 5.60 MeV तथा 7.06 MeV है तो, निम्नांकित नाभिकीय अभिक्रिया

${}^7\text{Li} + {}^1\text{H} \rightarrow {}^4\text{He} + {}^4\text{He} + \text{Q}$ में सकृत ऊर्जा Q का मान होगा :

(1) 19.6 MeV Educational Material Downloaded from <http://www.evidyarthi.in/>

Ans (4)



$$\text{BE of products} = (5.6 \text{ MeV}) \times 7 + 0$$

$$\text{उत्पाद की बन्धन ऊर्जा BE} = (5.6 \text{ MeV}) \times 7 + 0$$

$$= 39.2 \text{ MeV}$$

$$E_i = -39.2 \text{ MeV}$$

$$\text{BE of reactant} = (7.06) \times 4 \times 2$$

$$\text{कारकों की बन्धन ऊर्जा BE} = (7.06) \times 4 \times 2$$

$$= 56.48 \text{ MeV}$$

$$E_f = -56.48 \text{ MeV}$$

As nuclear energy decreases, so some energy will be released

चुंकि नाभिकीय ऊर्जा घट गई है अतः कुछ ऊर्जा मुक्त होगी

$$Q_{\text{release}} = E_i - E_f = (-39.2) - (-56.48) = 17.28 \text{ MeV}$$

43. A radio isotope 'X' with a half life 1.4×10^9 years decays to 'Y' which is stable. A sample of the rock from a cave was found to contain 'X' and 'Y' in the ratio 1 : 7. The age of the rock is :

- (1) 1.96×10^9 years (2) 3.92×10^9 years (3) 4.20×10^9 years (4) 8.40×10^9 years

एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक 'X' की अर्ध-आयु 1.4×10^9 वर्ष है। यह क्षणित होकर 'Y' में रूपान्तरित हो जाता है जो स्थायी है।

किसी गुफा की एक चट्ठान में 'X' तथा 'Y' का अनुपात 1 : 7 पाया गया। तो, इस चट्ठान की आयु होगी :

- (1) 1.96×10^9 वर्ष (2) 3.92×10^9 वर्ष (3) 4.20×10^9 वर्ष (4) 8.40×10^9 वर्ष

Ans. (3)



$$t = 0 \quad N_0 \quad 0$$

$$\text{at time } t \quad N_0 - x \quad x$$

$$\frac{N_0 - x}{x} = \frac{1}{7} \Rightarrow x = \frac{7N_0}{8}$$

$$\text{So remaining nuclei of X} = N_0 - x = \frac{N_0}{8} = \frac{N_0}{2^3}$$

So three half life periods would have been passed

$$\Rightarrow t = 3 t_{1/2} = 3 \times 1.4 \times 10^9 = 4.2 \times 10^9 \text{ year}$$



$$t = 0 \quad N_0 \quad 0$$

$$\text{किसी समय } t \text{ पर} \quad N_0 - x \quad x$$


$$\frac{N_0 - x}{x} = \frac{1}{7} \Rightarrow x = \frac{7N_0}{8}$$

$$\text{अतः X के शेष नाभिक} = N_0 - x = \frac{N_0}{8} = \frac{N_0}{2^3}$$

अतः तीन अर्द्ध-आयु का अनुपात

⇒ $t = 3 t_{1/2} = 3 \times 1.4 \times 10^9 = 4.2 \times 10^9 \text{ year}$


44. The given graph represents V – I characteristic for a semiconductor device.



Which of the following statement is correct ?

- (1) It is V – I characteristic for solar cell where, point A represents open circuit voltage and point B short circuit current.
- (2) It is for a solar cell and points A and B represent open circuit voltage and current, respectively.
- (3) It is for a photodiode and points A and B represent open circuit voltage and current respectively.
- (4) It is for a LED and points A and B represent open circuit voltage and short circuit current, respectively.


यहाँ ग्राफ (आलेख) में एक अर्ध-चालक युक्ति का V – I अभिलक्षण दर्शाया गया है।



इसके लिये निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

- (1) यह 'सौर सेल' का V – I अभिलक्षण है, जहाँ A, खुले परिपथ में वोल्टता तथा B लघु-परिपथ विद्युत धारा को निरूपित करता है।
- (2) यह 'सौर सेल' के लिये है तथा A और B खुले परिपथ में क्रमशः वोल्टता तथा विद्युत धारा को निरूपित करते हैं।
- (3) यह 'फोटो डायोड' के लिये है तथा A और B खुले परिपथ में क्रमशः वोल्टता तथा विद्युत धारा को निरूपित करते हैं।
- (4) यह LED के लिये है और A तथा B खुले परिपथ में क्रमशः वोल्टता तथा लघु-परिपथ में विद्युत धारा को निरूपित करते हैं।

**Ans.
Sol.**



It is V – i characteristic curve for a solar cell, where A represent open circuit voltage of solar cell and B represent short circuit current.

यह सौर सेल का अभिलाक्षणिक V – i ग्राफ है, जहाँ पर A सौर सेल का खुला परिपथ विभवान्तर बताता है तथा B लघु परिपथ धारा बताता है।

45. The barrier potential of a p-n junction depends on :

- (a) type of semi conductor material
- (b) amount of doping
- (c) temperature

Which one of the following is correct?

- (1) (a) and (b) only
- (2) (b) only
- (3) (b) and (c) only
- (4) (a), (b) and (c)

किसी p-n संधि का रोधक विभव निर्भर करता है :

- (a) अर्ध-चालक के पदार्थ पर
- (b) अपमिश्रण की मात्रा पर
- (c) ताप पर

निम्नांकित में से कौन सा सही है?

- (1) केवल (a) तथा (b)
- (2) केवल (b)
- (3) केवल (b) तथा (c)
- (4) (a), (b) तथा (c)

**Ans.
Sol.**

The barrier potential depends on type of semiconductor (for Si $V_b = 0.7$ volt & for Ge $V_b = 0.3$ volt), amount of doping and also on the temperature.

अवरोधक विभव अर्ध-चालक के प्रकार अपमिश्रण की मात्रा तथा ताप पर निर्भर करता है।

Get CBSE Notes, Video Tutorials, Test Papers & Sample Papers

के लिए = 0.3 वोल्ट)

PART- B : Chemistry (Code - P)

भाग - B : रसायन विज्ञान

46. What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum number $n = 3, \ell = 1, m = 0$ **(Atomic structure) (XI) (easy)**

- निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षकों की संख्या क्या होगी ?

$n = 3, \ell = 1, m = 0$

(1) + (2) Σ

- (i) It is 3P orbital with magnetic quantum number = 2.

So, it should be 3P

यह $3R$ कथ्यक है जिसकी वास्तवीय क्षांति संख्या = 0 है।

अतः यह 3P होना चाहिए

47. Calculate the energy in corresponding to light of wavelength 45 nm : (Planck's constant $h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js : speed of light $c = 3 \times 10^8$ ms $^{-1}$) **(Atomic structure) (XI) (Moderate)**

$$(1) 6.67 \times 10^{15} \quad (2) 6.67 \times 10^{11}$$

- (3) 4.42×10^{-15} (4) 4.42×10^{-18}

15 nm के कंपौलर्स के पासा के लिए गोला का पास देखें।

$$45 \text{ nm} \text{ के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का लेण्ड ऊर्जा का मान जूल में निकाला: } (\text{प्लाक स्थिरांक } k = 8.63 \times 10^{-3} \text{ J} \cdot \text{S})$$

(A) $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

(B) $3 \times 10^8 \text{ m}^{-1}$

(C) $3 \times 10^8 \text{ J} \cdot \text{S}$

(D) $3 \times 10^8 \text{ J} \cdot \text{m}$

- $$(1) 6.67 \times 10^{15} \quad (2) 6.67 \times 10^{11}$$

- $$(3) 4.42 \times 10^{-15} \quad (4) 4.42 \times 10^{-18}$$

Ans. (4)

$$\text{Sol. } E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{45 \times 10^{-9}} = 4.4 \times 10^{-18}$$

48. Equal masses of H_2 , O_2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27°C in identical conditions. The ratio of the volumes of gases $\text{H}_2:\text{O}_2:$ methane would be -

(Mole concept) (XI) (easy)

- (1) 8 : 16 : 1 (2) 16 : 8 : 1 (3) 16 : 1 : 2 (4) 8 : 1 : 2

समान द्रव्यमान में H_2O और मिथेन को एक आयतन V के पात्र में $27^\circ C$ पर समान परिस्थितियों में लिया गया है।

H·O · सिथेन गैसों के आयतन का अनुपात होगा -

- (1) 8 : 16 : 1 (2) 16 : 8 : 1 (3) 16 : 1 : 2 (4) 8 : 1 : 2

Ans (3)

Ans.	(5)		
Sol.	H_2 32 16	O_2 32 1	CH_4 32 2 m


49. If a is the length of the side of a cube, the distance between the body centered atom and one corner atom in the cube will be - **(Solid state) (XII) (Moderate)**

- (1) $\frac{2}{\sqrt{3}}a$ (2) $\frac{4}{\sqrt{3}}a$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$

यदि a घन के फलक की लम्बाई है, तो घन के अन्तःकेन्द्रित परमाण एवं कोने वाले परमाण के बीच की दूरी होगी -

- (1) $\frac{2}{\sqrt{3}}a$ (2) $\frac{4}{\sqrt{3}}a$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$

Sol.



50. Which property of colloids is not dependent on the charge on colloidal particles ?

(Surface chemistry) (XII) (Easy)

- (1) Coagulation (2) Electrophoresis (3) Electro-osmosis (4) Tyndall effect
 कोलॉइडों का कौनसा गुण कोलॉइड करने के आवेश पर निर्भर नहीं करता है ?
 (1) स्कंदन (2) वैद्युत कण संचलन (3) वैद्युत प्राप्ति (4) टिंडल प्रभाव

Ans. (4)

Sol. Tyndal effect is due to Scattering of light and not due to charge.

टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकर्षण के कारण होता है। (आवेश के कारण नहीं)

51. Which of the following salts will give highest pH in water ? (Ionic equilibrium) (XI) (easy)


- (1) KCl (2) NaCl (3) Na_2CO_3 (4) CuSO_4

निम्नलिखित लवणों में कौन जल में अधिकतम pH देगा ?

- (1) KCl (2) NaCl (3) Na_2CO_3 (4) CuSO_4

Ans. (3)

Sol. Na_2CO_3 is basic due to hydrolysis of CO_3^{2-} ion (CO_3^{2-} आयन के जल अपघटन के कारण Na_2CO_3 क्षारीय है।)



52. Of the following 0.10m aqueous solutions, which one will exhibit the largest freezing point depression ?

(Solution & Coligative property) (XII) (Easy)

- (1) KCl (2) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (3) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (4) K_2SO_4

निम्न में से किसके 0.10m जलीय विलयन का सबसे ज्यादा हिमांक में अवनमन होगा ?

- (1) KCl (2) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (3) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (4) K_2SO_4

Ans. (3)

Sol. $\Delta T_f = iK_f m$

i is highest for $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ के लिये i का मान उच्चतम होगा

53. When 22.4 litres of $\text{H}_2(g)$ is mixed with 11.2 litres of $\text{Cl}_2(g)$, each at STP, the moles of $\text{HCl}(g)$ formed is equal to -


(Mole concept) (XI) (easy)

- (1) 1 mol of $\text{HCl}(g)$ (2) 2 mol of $\text{HCl}(g)$ (3) 0.5 mol of $\text{HCl}(g)$ (4) 1.5 mol of $\text{HCl}(g)$

जब 22.4 लीटर $\text{H}_2(g)$ को 11.2 लीटर $\text{Cl}_2(g)$ के साथ STP पर मिश्रित किया जाता है, तो $\text{HCl}(g)$ के मोल बनेंगे -

- (1) 1 मोल $\text{HCl}(g)$ (2) 2 मोल $\text{HCl}(g)$ (3) 0.5 मोल $\text{HCl}(g)$ (4) 1.5 मोल $\text{HCl}(g)$

Ans. (1)



$$1 \text{ mole} = \frac{1}{2} \text{ mole}$$

Limiting reagent is Cl_2 . So, 1 mole HCl is formed.

Cl_2 सीमान्त अभिकर्मक है अतः 1 mole HCl बनेगा

54. When 0.1 mol MnO_4^{2-} is oxidised the quantity of electricity required to completely MnO_4^{2-} to MnO_4^- is -


(Electro chemistry) (XII) (Moderate)

- (1) 96500 C (2) 2×96500 C (3) 9650 C (4) 96.50 C

अगर 0.1 mol MnO_4^{2-} को पूर्ण उपचयित (MnO_4^{2-} से MnO_4^-) करते हैं, तो कितनी विद्युत मात्रा की आवश्यकता होगी -

- (1) 96500 C (2) 2×96500 C (3) 9650 C (4) 96.50 C

Ans. (3)



0.1 mole

v.f. = 1

So, 0.1 mole = 96500×0.1

= 9650 C charge is required (आवेश आवश्यक होगा)


55. Using the Gibbs change, $\Delta G^\circ = + 63.3 \text{ kJ}$, for the following reaction, $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}$

(aq) the K_{sp} of $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ in water at 25°C is ($R = 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

(Therodynamics+Ionic equilibrium) (XI) (Tough)

- (1) 3.2×10^{-26} (2) 8.0×10^{-12} (3) 2.9×10^{-3} (4) 7.9×10^{-2}

गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, $\Delta G^\circ = + 63.3 \text{ kJ}$ को प्रयोग में लेते हुए निम्न अभिक्रिया के लिए जल में 25°C पर



- (1) 3.2×10^{-26} (2) 8.0×10^{-12} (3) 2.9×10^{-3} (4) 7.9×10^{-2}

Ans. (2)

Sol. $\Delta G^\circ = - 2.303 RT \log K_{sp}$

$$63.3 \times 10^3 = - 2.303 \times 8.31 \times 298 \log K_{sp}$$

$$- 11.09 = \log K_{sp}$$

$$8 \times 10^{-12} = K_{sp}$$

56. The weight of silver (at.wt. = 108) displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 mL of O_2 at STP will be -

(Electro chemistry) (XII) (Moderate)

- (1) 5.4 g (2) 10.8 g (3) 54.0 g (4) 108.0 g

सिल्वर (प.भा = 108) का कितना भार विस्थापित होगा उतनी विद्युत से जो कि 5600 mL O_2 को STP पर विस्थापित करता है ?

- (1) 5.4 g (2) 10.8 g (3) 54.0 g (4) 108.0 g

Ans. (4)

Sol. $n_{\text{O}_2} = \frac{5600}{22400} = \frac{1}{4}$

$$\frac{w_{\text{Ag}}}{108} \times 1 = \frac{w_{\text{O}_2}}{M_{\text{O}_2}} \times 4 \quad (2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^-)$$

$$\frac{w_{\text{Ag}}}{108} = \frac{1}{4} \times 4$$

$$w_{\text{Ag}} = 108 \text{ g}$$

57. Which of the following statements is correct for the spontaneous adsorption of a gas ?

- (1) ΔS is negative and therefore, ΔH should be highly positive (surface chemistry) (XII) (Easy)

- (2) ΔS is negative and therefore, ΔH should be highly negative

- (3) ΔS is positive and therefore, ΔH should be negative

- (4) ΔS is positive and therefore, ΔH should also be highly positive

निम्न में से कौनसा कथन गैस के स्वतः प्रवर्तित अधिशेषण के लिए सही है ?

- (1) ΔS ऋणात्मक है, इसलिए, ΔH उच्चतम धनात्मक होना चाहिए

- (2) ΔS ऋणात्मक है, इसलिए, ΔH उच्चतम ऋणात्मक होना चाहिए


- (3) ΔS धनात्मक है, इसलिए, ΔH उच्चतम ऋणात्मक होना चाहिए

- (4) ΔS धनात्मक है, इसलिए, ΔH उच्चतम धनात्मक होना चाहिए

Ans. (2)

Sol. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
 $\Delta S = -ve$ for adsorption
So, ΔH must be $-ve$ to make $\Delta G = -ve$
 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
स्वतः प्रवर्तित अधिशोषण के लिए $\Delta S = -ve$
अतः ΔG का मान ऋणात्मक होने के लिए ΔH का मान अधिक ऋणात्मक होना चाहिए $\Delta G = -ve$
 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$


58. For the reversible reaction : (Chemical equilibrium) (XI) (easy)



The equilibrium shifts in forward direction -

- (1) by increasing the concentration of $NH_3(g)$
- (2) by decreasing the pressure
- (3) by decreasing the concentrations of $N_2(g)$ and $H_2(g)$
- (4) by increasing pressure and decreasing temperature

इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए :



साम्यवस्था अग्र दिशा में विस्थापित होगी -


- (1) $NH_3(g)$ की सान्द्रता बढ़ाने पर
- (2) दाब में कमी करने पर
- (3) $N_2(g)$ एवं $H_2(g)$ की सान्द्रता कम करने पर
- (4) दाब में वृद्धि एवं ताप में कमी करने पर

Ans. (4)

Sol. According to Le-Chatalier principle. (लीशातेलिए सिद्धान्त के अनुसार)

59. For the reaction : अभिक्रिया के लिये

(Thermodynamics) (XI) (Tough)



$$\Delta U = 2.1 \text{ k cal}, \Delta S = 20 \text{ cal K}^{-1} \text{ at } 300 \text{ K}$$

$$300 \text{ K पर } \Delta U = 2.1 \text{ k cal}, \Delta S = 20 \text{ cal K}^{-1}$$

Hence तो, ΔG is है:

- (1) 2.7 k cal
- (2) -2.7 k cal
- (3) 9.3 k cal
- (4) -9.3 k cal

Ans. (2)

Sol. $\Delta H = \Delta U + \Delta n g RT$

$$= 2.1 + \frac{2 \times 2 \times 300}{1000} = 1.2$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$= 3.3 - 300 \times \frac{26}{1000} = 3.3 - 6 = -2.7 \text{ K cal}$$

60. For a given exothermic reaction, K_p and K_p' are the equilibrium constants at temperatures T_1 and T_2 respectively. Assuming that heat of reaction is constant in temperatures range between T_1 and T_2 , it is readily observation that: (Chemical equilibrium) (XI) (Moderate)

उष्णाक्षेपी अभिक्रिया के लिये तापमान T_1 एवं T_2 पर साम्यावस्था स्थिरांक क्रमशः K_p और K_p' हैं। अगर यह मान लें कि तापमान सीमा T_1 एवं T_2 के बीच अभिक्रिया की ऊष्णा स्थिर है। तो आसानी से प्रेक्षित है :

- (1) $K_p > K_p'$
- (2) $K_p < K_p'$
- (3) $K_p = K_p'$
- (4) $K_p = \frac{1}{K_p'}$

Ans. (1)

Sol. $\log \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^0}{2.303R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$

$T_2 > T_1$ So $K_p < K_p'$ (exothermic reaction)

(assuming $T_2 > T_1$, although it is not mentioned, which temperature is higher)

If $T_1 > T_2$ then $K_p > K_p'$ then answer should be (2).

$$\log \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^0}{2.303R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$T_2 > T_1$ So $K_p < K_p'$ (उष्माक्षेपी अभिक्रिया)

(यह मानते हुए कि $T_2 > T_1$ यद्यपि यह नहीं कहा गया है कौनसा तापमान अधिक है

यदि $T_1 > T_2$ तब $K_p > K_p'$ तो उत्तर (2) होना चाहिए

61. Which of the following orders of ionic radii is correctly represented?

निम्न में से किसके द्वारा आयनिक त्रिज्या का क्रम सही रूप से प्रदर्शित है ?

(Periodic table) (XI) (Moderate)

- (1) $H^- > H^+ > H$ (2) $Na^+ > F^- > O^{2-}$ (3) $F^- > O^{2-} > Na^+$ (4) $Al^{3+} > Mg^{2+} > N^{3-}$

Ans. **BONUS**

Sol. $F^- = 133 P_m$

$O^{2-} = 140 P_m$

$Na^+ = 102 P_m$

There is no correct option. (कोई भी विकल्प सही नहीं हैं)


62. 1.0 g of magnesium is burnt with 0.56 g O_2 in a closed vessel. Which reaction is left in excess and how much? (At. wt. Mg = 24; O = 16) **(Mole concept) (XI) (Moderate)**

1.0 g मैग्निशियम को 0.56 g O_2 के साथ बंद पात्र में जलाया जाता है। कौन-सा अभिक्रिया शेष रहेगा और कितना?

(Mg का परमाणु भार = 24 एवं O का परमाणु भार = 16)

- (1) Mg, 0.16 g (2) O_2 , 0.16 g (3) Mg, 0.44 g (4) O_2 , 0.28 g

Ans. (1)



$$\begin{array}{rcl} 1.0 & 0.56 \\ 24 & 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 0.5 & 0.07 \\ 12 & 4 \end{array}$$

$$\frac{0.5}{12} - x \quad \frac{0.07}{4} - \frac{x}{2}$$

Oxygen is limiting reagent so (ऑक्सीजन सीमान्त अभिकर्मक है इसलिए) $\frac{0.07}{4} - \frac{x}{2} = 0$

$$x = \frac{0.07}{2}$$

$$\text{excess (आधिक्य) Mg} = \frac{0.5}{12} - \frac{0.07}{2} \text{ mole}$$

mass of Mg is (Mg का द्रव्यमान है) = $1 - 0.7 \times 12 = 0.16$ gram.

63. The pair of compounds that can exist together is:
 यौगिकों का युग्म जो एक साथ विद्यमान रह सकता है, है: **(Redox reaction) (XI) (Moderate)**
 (1) FeCl_3 , SnCl_2 (2) HgCl_2 , SnCl_2 (3) FeCl_2 , SnCl_2 (4) FeCl_3 KI

Ans. (3)

Sol. FeCl_2 and SnCl_2 (both are reducing agent and have lower oxidation no.)
 FeCl_2 तथा SnCl_2 (दोनों ही अपचायक हैं तथा निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था में हैं।)

64. Be^{2+} is isoelectronic with which of the following ions? **(Atomic structure) (XI) (Easy)**
 निम्न आयन में से Be^{2+} किसके समझलेक्ट्रॉनिक हैं ?

- (1) H^+ (2) Li^+ (3) Na^+ (4) Mg^{2+}

Ans. (2)

Sol. $\text{Be}^{2+} = 1\text{s}^2 = \text{Li}^+$

65. Which of the following molecules has the maximum dipole moment ?

निम्न में से किस अणु का द्विधृव आधूर्ण सर्वाधिक है ? **(Chemical bonding) (XI) (Easy)**

- (1) CO_2 (2) CH_4 (3) NH_3 (4) NF_3

Ans. (3)


Sol. CO_2 CH_4 NH_3 NF_3
 $\mu = 0$ $\mu = 0$ $\mu = 1.47\text{D}$ $\mu = 0.23\text{D}$

66. Which one of the following species has plane triangular shape ?

निम्न स्पीशिज में से किसका आकार समतल त्रिकोणीय है ? **(Chemical bonding) (XI) (Moderate)**

- (1) N_3 (2) NO_3^- (3) NO_2 (4) CO_2

Ans. (2)



sp^2 (triangular planar) (समतल त्रिकोणीय)

67. Acidity of diprotic acids in aqueous solutions increases in the order:

जलीय विलयनों में डाइप्रोटिक अम्लों की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम है : **(p-block) (XII) (Easy)**

- (1) $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$ (2) $\text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Te}$
 (3) $\text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se}$ (4) $\text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{S}$

Ans. (1)

Sol. $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$ (acidic strength) (अम्लीय सामर्थ्य)

68. (a) $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + 2\text{O}_2$ **(p-block) (XII) (Easy)**
 (b) $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

Role of hydrogen peroxide in the above reactions is respectively:

ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन परॉक्साइड का कार्य है:

- (1) oxidizing in (a) and reducing in (b) (a) में उपचायक एवं (b) में अपचायक
 (2) reducing in (a) and oxidizing in (b) (a) में अपचायक एवं (b) में उपचायक
 (3) reducing in (a) and (b) (a) एवं (b) में अपचायक
 (4) oxidizing in (a) and (b) (a) एवं (b) में उपचायक

Ans. (3)

Sol. O_3 is reduced into O^{2-} ion and

Ag_2O is reduced to Ag so


H_2O_2 is reducing agent in both (a) and (b)

O_3 का अपचयन O^{2-} आयन तथा

Ag_2O का अपचयन Ag में होता है इसीलए

Get CBSE Notes, Video Tutorials, Test Papers & Sample Papers

H_2O_2 दोनों (a) तथा (b) में अपचायक है।

- 69.** Artificial sweetner which is stable under cold conditions only is :
 (1) Saccharine (2) Sucratose (3) Aspartame (4) Alitame
 कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही स्थायी है : **(Chemistry in everyday life) [Class XII] (easy)**
 (1) सैकरीन (2) सूक्रालोस (3) ऐस्पार्टम (4) एलिटेम
- Ans.** (3)
Sol. Aspartame is stable at cold conditions but unstable at cooking temperature.
 ऐस्पार्टम शीत परिस्थिति में स्थाई होता है लेकिन खाना पकाने वाले तापमान पर अस्थायी होता है।
- 70.** In acidic medium, H_2O_2 changes $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ to CrO_5 which has two ($-\text{O} - \text{O}-$) bonds Oxidation state of Cr in CrO_5 is :
 (Redox) (XI) (Easy)
 अम्लीय माध्यम में H_2O_2 , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ को CrO_5 जिसमें कि दो ($-\text{O} - \text{O}-$) आबंध है में परिवर्तित करता है | CrO_5 में Cr की आकर्षीजन अवस्था है।
 (1) +5 (2) +3 (3) +6 (4) -10
Ans. (3)
- Sol.** 
- 71.** The reaction of aqueous KMnO_4 with H_2O_2 in acidic conditions gives :
 (Redox/d-block) (XI) (Easy)
 जलीय KMnO_4 की अभिक्रिया अम्लीय परिस्थिति में H_2O_2 से करवाने पर देता है:
 (1) Mn^{4+} and O_2 (2) Mn^{2+} and O_2 (3) Mn^{2+} and O_3 (4) Mn^{4+} and MnO_2
Ans. (2)
Sol. $3\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{KMnO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 5\text{O}_2 + 2\text{MnSO}_4 + 8\text{H}_2\text{O} + \text{K}_2\text{SO}_4$
- 72.** Among the following complexes the one which shows Zero crystal field stabilizations energy (CFSE) निम्न संकुलों में से एक जो शून्य क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा (CFSE) प्रदर्शित करता है :
 (Co-ordination compounds) (XII) (Moderate)
 (1) $[\text{Nn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ (2) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ (3) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (4) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
Ans. (2)
Sol. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
 $\text{Fe}^{+2} = 3\text{d}^5 (\text{t}_{2g}^{1,1,1} \text{e}_g^{1,1})$
 so C.F.S.E. is = $[-0.4 \times 3 + 0.6 \times 2] \Delta_0 = 0$
- 73.** Magnetic moment 2.83 BM is given by which of the following ions? (d-block) (XII) (easy)
 (At.nos.Ti=22,Cr=24, Mn=25, Ni=28)
 निम्नांकित आयनों में से किसका चुम्बकीय आघूर्ण 2.83 BM है ?
 (प.सं: Ti=22, Cr=24, Mn=25, Ni=28)
 (1) Ti^{3+} (2*) Ni^{2+} (3) Cr^{3+} (4) Mn^{2+}
Ans. (2)
Sol. $\mu = 2.83$, $n = 2$
 so (इसलिए) Ni^{2+} ($3\text{d}^8 4\text{s}^0$)
- 74.** Which of the following complexes is used to be as an anticancer agent ? (Co-ordination compounds)
 निम्न में से कौन -से संकुल का उपयोग प्रति कैन्सर कर्मक रूप में होता है ? (XII) (Moderate)
 (1) mer-[$\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}$] (2*) Cis - [$\text{Pt Cl}_2(\text{NH}_3)_2$] (3) cis - $\text{K}_2[\text{Pt Cl}_2\text{Br}_2]$ (4) Na_2CoCl_4
Ans. (2)
Sol. Cis - [$\text{Pt Cl}_2(\text{NH}_3)_2$] known as cis-platin is used as an anticancer agent.

75. Reason of lanthanoid contraction is : (Periodic table) (XI) (easy)

- (1) Negligible screening effect of 'f' orbitals
- (2) Increasing nuclear charge
- (3) Decreasing nuclear charge
- (4) Decreasing screening effect

लैन्थैनोइड संकुचन का कारण है :


- (1) 'f' कक्षकों का नगण्य आवरण प्रभाव
- (2) नाभिकीय आवेश में वृद्धि
- (3) नाभिकीय आवेश में कमी
- (4) आवरण प्रभाव में कमी

Ans. (1)





Sol. Poor screening effect of f-orbital. (f-कक्षकों का दुर्बल आवरण प्रभाव)

76. In the following reaction, the product (A) (Topic-Aromatic[O]) (Class-XII) (Moderate)


निम्न अभिक्रिया में उत्पाद (A) है :



is :



Ans. (4)



It is an electrophilic substitution reaction.

Coupling reaction of aniline takes place at the para-position to NH₂ group in benzene nucleus gives azodye.

यह एक इलेक्ट्रॉनस्त्रेचिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया है।

एनिलीन में NH₂ की पेरा स्थिति पर युग्मन अभिक्रिया द्वारा ऐजो रंजक प्राप्त होता है।

77. Which of the following will be most stable diazonium salt RN₂⁺X⁻ ? (Aromatic[O]) (Class-XII) (easy)

निम्न में से कौन सर्वधिक स्थायी डाइएजोनियम लवण RN₂⁺X⁻ होगा?

- (1) CH₃N₂⁺X⁻
- (2*) C₆H₅N₂⁺X⁻
- (3) CH₃CH₂N₂⁺X⁻
- (4) C₆H₅CH₂N₂⁺X⁻

Ans. (2)





Sol. Benzene diazonium chloride is most stable due to conjugation

बेन्जीन डाइएजोनियम क्लोराइड संयुग्मन के कारण स्थायी होता है।


78. D(+) glucose reacts with hydroxyl amine and yield an oxime. The structure of the oxime would be :

(Topic-Biomolecules/Carbohydrate[O]) (Class-XII) (easy)

D(+) ग्लूकोस हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ऑक्जाइम देता है। ऑक्जाइम की सही संरचना है :



Ans. (4)



79. Which of the following hormones is produced under the condition of stress which stimulates glycogenolysis in the liver of human being ? (Topic-Biomolecules/Hormones[O]) (Class-XII) (easy)

- (1) Thyroxin (2) Insulin (3) Adrenaline (4) Estradiol

निम्न में से कौन-सा हार्मोन तनाव की स्थिति में मानव यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस उद्दीपित करता है ?

- (1) थाईरोक्सिन (2) इन्सुलिन (3) ऐंड्रीनिलिन (4) ऐस्ट्रोडाइओल





Ans. (3)

Sol. Adrenaline hormone is produced by adrenal glands after receiving a message from the brain that a stressfull situation has presented itself. It is commonly known as ***fight or flight*** hormone.

तनाव की स्थिति में विमान द्वारा संदेश प्राप्त होने पर एंड्रीनिलिन ग्रन्थि से एंड्रीनिलिन हार्मोन का उत्सर्जन होता है इस हार्मोन का सामान्य नाम ***fight*** और ***flight*** हार्मोन है

80. Which one of the following is an example of a thermosetting polymer?

निम्न में से कौन तापदृढ़ बहुलक का उदाहरण है ? (Topic-Polymer[O]) (Class-XII) (Moderate)



Ans. (4)

Sol. (1) Neoprene rubber (नियोप्रीन रबर)

(2) PVC is a thermoplastic (PVC थर्मोप्लास्टिक होता है)

(3) Nylon-6,6 is a fibre (नायलॉन-6,6 रेशे है)

(4) Bakelite is a thermosetting polymer (बैकेलाइट तापदृढ़ बहुलक है !)

- 81.** Which of the following organic compounds polymerizes to form the polyester Dacron?
 (1) Propylene and paraHO – (C₆H₄) – OH (Topic-Polymer[O]) (Class-XII) (Moderate)


- (2) Benzolic acid and ethanol
 (3) Terephthalic acid and ethylene glycol
 (4) Benzoic acid and para HO – (C₆H₄) – OH

निम्न में से कौन–से कार्बनिक यौगिक बहुलीकृत होकर पॉलिएस्टर डेक्रॉन देते हैं ?

- (1) प्रोपीलिन और पैरा HO – (C₆H₄) – OH
 (2) बेन्जाइक अम्ल एंव ईथेनॉल
 (3) टेरेप्थाइलिक अम्ल एंव एथिलीन ग्लाईकोल
 (4) बेन्जाइक अम्ल एंव पैरा HO – (C₆H₄) – OH

Ans. (3)

Polyester Dacron



- 82.** Which one of the following is not a common component of Photochemical Smog?

(Topic-Environmental chemistry[O]) (Class-XI) (easy)

- (1) Ozone (2) Acrolein (3) Peroxyacetyl nitrate (4) Chlorofluorocarbons

निम्न में से कौन प्रकाश रासायनिक ध्रुएँ का सामान्य घटक नहीं है ?

- (1) ओजोन (2) एक्रोलिन (3) परोक्सीऐसीटिल नाइट्रोट्रेट (4) क्लोरो-फ्लोरोकार्बन

Ans. (4)

Sol.

- 83.** In the Kjedahl's method for estimation of nitrogen present in soil sample, ammonia evolved from 0.75g of sample neutralized 10ml. of 1M H₂SO₄. The percentage of nitrogen in the soil is: (Topic-POC[O]) (Class-XI) (easy)

रेत के नमूने में से नाइट्रोजन की उपस्थिति आकलन करने की कैल्डल विधि में 0.75g नमूने से उत्सर्जित अमोनिया को 10ml.

1M H₂SO₄ से उदासीन किया जाता है। रेत में नाइट्रोजन का प्रतिशत है :

- (1) 37.33 (2) 45.33 (3) 35.33 (4) 43.33

Ans. (1)

Sol. Volume of 1M H₂SO₄ = 10 m mol

Volume of NH₃ consumed = 20 m mol

$$\text{Weight of N} = \frac{14 \times 20}{1000} \text{ g} = 0.280 \text{ g}$$

$$\% \text{ N} = \frac{0.280}{0.75} \times 100 = 37.33\%$$


1M H₂SO₄ का आयतन = 10 m mol

अभिकृत NH₃ का आयतन consumed = 20 m mol





$$\text{N का द्रव्यमान} = \frac{14 \times 20}{1000} \text{ g} = 0.280 \text{ g}$$

$$\% \text{ N} = \frac{0.280}{0.75} \times 100 = 37.33\%$$


84. What product are formed when the following compound is treated with Br_2 in the presence of FeBr_3 ?
निम्न यौगिक की क्रिया Br_2 के साथ FeBr_3 की उपस्थिति में करवाने पर क्या उत्पाद बनेगा?



(Topic-Aromatic[O]) (Class-XII) (easy)






Ans. (3)



85. Which of the following compounds will undergo racemisation when solution of KOH hydrolysis?
निम्न में से कौनसे यौगिकों का KOH के विलयन से जल अपघटन के दौरान रेसेमीकरण होता है:

(Topic-Reaction Mechanism[O]) (Class-XII) (Moderate)



(1) (i) and (ii)

(2) (ii) and (i)v

(3) (iii) and (iv)

(4) (i) and (iv)

(1) (i) और (ii)

(2) (ii) और (i)v

(3) (iii) और (iv)

(4) (i) और (iv)

Ans. (BONUS)

Sol. Answer is only (iv) but there is no correct option.

उत्तर केवल (iv) है लेकिन सही विकल्प नहीं दिया गया है।

86. Among the following sets of reaction which one produces anisole? (Topic-Reaction Mechanism[O])
निम्न में से कौनसा अभिकारक समूह ऐनिसोल देता है?



(1) $\text{CH}_3\text{CHO} ; \text{RMgX}$

(2) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} ; \text{NaOH} ; \text{CH}_3\text{I}$

(3) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} ; \text{neutral (उदासीन) FeCl}_3$

(4) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_3 ; \text{CH}_3\text{COCl} ; \text{AlCl}_3$

Ans. (2)



(3) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{neutral FeCl}_3 \rightarrow$ Violet colour complex (बैंगनी रंग का संकुल)

(4) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_3 + \text{CH}_3\text{COCl} + \text{AlCl}_3 \rightarrow$ Para-methyl acetophenone (पेरा-मेथिलएसीटोफिनोन)

87. Which of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate ? (Topic-GOC[O]) (Class-XII)

- (1) 2, 4, 6-trinitrophenol (2) Benzoic acid
(3*) o-Nitrophenol (4) Benzenesulphonic acid

निम्न में से कौन सोडियम हाइड्रोजन कार्बनेट में विलेय नहीं है ?





- (1) 2, 4, 6-द्राईनाइट्रोफिनॉल (2) बेन्जोइक अम्ल
(3) o-नाईट्रोफिनॉल (4) बेन्जीनसल्फोनिक अम्ल

Ans. (3)

Sol. Acids stronger than H_2CO_3 give CO_2 gas with sodium hydrogen carbonate and also soluble in it.
 H_2CO_3 से प्रबल अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बनेट के साथ CO_2 गैस देते हैं तथा इसमें विलेय भी होते हैं।


88. Which one is most reactive towards Nucleophilic addition reaction ? (Topic-Carbonyl compounds[O]) (Class-XII) (easy)

निम्न में से कौन नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक सक्रिय है ?




Ans. (4)

Sol. Electron withdrawing ($-I, -M$) groups increases reactivity towards nucleophilic addition reaction.




NO_2 ($-I, -M$) group increases the reactivity towards nucleophilic addition reaction at CHO group.

इलेक्ट्रॉनआकर्षी ($-I, -M$) समूह नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं।



में NO_2 ($-I, -M$) समूह CHO समूह पर नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता को बढ़ा देता है।


89. Identify Z in the sequence of reactions : (Topic-Alkene/Reaction mechanism[O])(Class-XII) (Moderate)
अभिक्रिया अनुक्रम में Z पहचाने :



- (1) $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_3-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
(3) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4-\text{O}-\text{CH}_3$


- (2) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
(4) $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$

Ans. (1)



HBr in presence of peroxide gives anti Markovnikoff addition product.

1° alkyl halide on reaction with $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ gives S_N2 reaction.



HBr का परऑक्साइड की उपस्थिति में योग द्वारा एन्टीमार्कोनिकॉफ उत्पाद प्राप्त होता है।

1° एल्किल हेलाइड $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ के साथ S_N2 अभिक्रिया देता है।

90. Which of the following organic compounds has same hybridization as its combustion product -(CO₂) ?

(Topic-GOC[O])(Class-XI) (easy)

- (1) Ethane (2) Ethyne (3) Ethene (4) Ethanol

निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का संकरण उसके दहन उत्पाद (CO₂) जैसा है ?

- (1) ईथेन (2) ईथाइन (3) ईथीन (4) ईथेनॉल

Ans. (2)

Sol. In Ethyne (CH≡CH) both carbon atoms are sp hybrid as the hybridisation of combustion product, carbon atom of O=C=O (CO₂).

एथाइन (CH≡CH) के दोनों कार्बन का संकरण sp है जैसा की उसके दहन उत्पाद O=C=O (CO₂) का संकरण होता है।

PART- C : BIOLOGY

भाग - C : जीव विज्ञान

91. Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes?

- (1) Sargassum (2) Ectocarpus (3) Ulothrix (4) Spirogyra

निम्नलिखित में से कौन, अकाशाभिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है?

- (1) सारगासम (2) एक्टोकार्पस (3) यूलोथ्रिक्स (4) स्पाइरोगायरा

Ans. (4)

92. Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on:

- (1) Presence or absence of a well defined nucleus (2) Mode of reproduction
(3) Mode of nutrition. (4) Complexity of body organisation

आर. एच. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित पांच जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है?

- (1) सुपरिभाषित केन्द्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति (2) प्रजनन का ढंग
(3) पोषण का ढंग (4) काय संघटन की जटिलता

Ans. (1)

93. Which one of the following fungi contains hallucinogens ?

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) <i>Morchella esculenta</i> | (2) <i>Amanita muscaria</i> |
| (3) <i>Neurospora sp.</i> | (4) <i>Ustilago sp.</i> |

निम्नलिखित में से कौन से कवक में हैलोसिनोजन हैं ?

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| (1) मॉर्केला एस्कुलेन्टा | (2) अमानीटा मस्कारिया |
| (3) न्यूरोस्पोरा जाति | (4) अस्टीलेगो जाति |

Ans. (2)

Sol. *Amanita muscaria* is a species of poisonous mushroom. It contains a psychoactive compound known as **muscimol** having hallucinogenic properties.

ऐमेनिटा मस्करिया मशरूम की एक विषैली प्रजाति है। इसमें एक मनोसक्रिय यौगिक मस्कीमोल उपस्थित होता है जिसकी प्रवृत्ति मतिप्रम करने वाली होती है।

94. Archaeabacteria differ from eubacteria in:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) Cell membrane structure | (2) Mode of nutrition |
| (3) Cell shape | (4) Mode of reproduction |

आद्यजीवाणु (आर्कोबैक्टीरिया), सुजीवाणुओं (यूबैक्टिरिया) से किसमें भिन्न होते हैं ?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (1) कोशिका कला संरचना | (2) पोषण का ढंग |
| (3) कोशिका आकार | (4) प्रजनन का ढंग |

Ans. (1)

Sol. Archaeabacteria show the presence of branched chain lipids in cell membrane than eubacteria. That increases tolerance against adverse conditions.

यूबैक्टिरिया की तुलना में ऑर्किबैक्टिरिया की कोशिका कला में शाखित शृंखला लिपिड्स होते हैं, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं।

95. Which one of the following is wrong about *Chara*?

- | |
|--|
| (1) Upper oogonium and lower round antheridium |
| (2) Globule and nucule present on the same plant |
| (3) Upper antheridium and lower oogonium |
| (4) Globule is male reproductive structure |

कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौनसा गलत है ?

- | |
|--|
| (1) ऊपरी अण्डधानी और निचली गोल पुंधानी। |
| (2) ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की एक ही पौधे में उपस्थिति। |
| (3) ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी |
| (4) ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है। |

Ans. (3)

96. Which of the following is responsible for peat formation?

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| (1) <i>Marchantia</i> | (2) <i>Riccia</i> | (3) <i>Funaria</i> | (4) <i>Sphagnum</i> |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|

पीट बनने के लिये कौनसा उत्तरदायी है ?

- | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| (1) मार्केंसिया | (2) रिक्सीया | (3) फ्यूनारिया | (4) स्फेनस |
|-----------------|--------------|----------------|------------|

Ans. (4)

97. Placenta and pericarp are both edible portions in :

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| (1) Apple | (2) Banana | (3) Tomato | (4) Potato |
|-----------|------------|------------|------------|

बीजाण्डासन और फलभित्ति, दोनों खाने योग्य भाग किसमें हैं ?

- | | | | |
|---------|----------|-----------|---------|
| (1) सेब | (2) केला | (3) टमाटर | (4) आलू |
|---------|----------|-----------|---------|

Ans. (3)

Sol. Tomato has berry fruit in which all the parts of fruit including placenta and pericarp are edible.

टमाटर में बेरी फल होता है जिसमें फल के सभी भाग जिसमें बीजाण्डासन तथा पेरीकॉर्प शामिल हैं, खाने योग्य होते हैं।

98. When the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as:

- (1) Vexillary (2) Imbricate (3) Twisted (4) Valvate

जब बाह्यदल पुंज या दल पुंज की किनारें, बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को अतिथादित करती हैं तो इस दशा को कहा जाता है:

- (1) वैक्सिलरी (2) कोरछादी (3) व्यावर्तित (4) कोरस्पर्शी

Ans. (2)

Sol.



Valvate

Twisted

Imbricate

Vexillary

99. You are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root. Which of the following anatomical structures will you use to distinguish between the two?

- (1) Secondary xylem (2) Secondary phloem (3) Protoxylem (4) Cortical cells

आपको एक द्विबीजपत्री तने और एक द्विबीजपत्री जड़ के काफी पुराने टुकड़े दिये गये हैं। आप उन दोनों में प्रमेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे?

- (1) द्वितीयक दारू (2) द्वितीयक पोषवाह (3) आदिदारू (4) वल्कुट कोशिकायें

Ans. (3)

100. Which one of the following statements is correct ?

- (1) The seed in grasses is not endospermic.
(2) Mango is a parthenocarpic fruit
(3) A proteinaceous aleurone layer is present in maize grain.
(4) A sterile pistil is called a staminode.

निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ?

- (1) घासों के बीज भ्रूणपोषी नहीं हैं।
(2) आम एक अनिषेकफली फल है।
(3) मक्का के दाने में एक प्रोटीनकृत एल्युरोन परत उपस्थित होती है।
(4) एक बंध्य स्त्रीकेसर को बंध्य पुंकेसर कहा जाता है।

Ans. (3)

101. Tracheids differ from the tracheary elements in :

- (1) Having caspary strips (2) Being imperforate

- (3) Lacking nucleus (4) Being lignified

वाहिनिकी, अन्य वाहिनीय तत्वों से कैसे भिन्न होती हैं ?

- (1) कैसपेरी पट्टियों का होना (2) अछिद्री होना
(3) केन्द्रक का अभाव (4) लिग्निन युक्त होना

Ans. (2)

102. An example of edible underground stem is:

- (1) Carrot (2) Groundnut (3) Sweet potato (4) Potato

खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौनसा है ?

- (1) गाजर (2) मूँगफली (3) शकरकन्दी (4) आलू

Ans. (4)

Sol. In potato - Edible part is underground tuber that is modification of underground stem. In carrot and sweet potato the edible parts are conical root and tuberous root respectively while in groundnut edible part is cotyledons.

आलू में खाने योग्य भूगत मीमगत कदम होती है जो मीमगत तने का स्लोपातरण है। गाजर तथा मीठे आलू में

भाग शंकुरूपी मूल तथा कंदेल मूल होती है जबकि मूँगफली में खाने योग्य भाग बीजपत्र होते हैं।

- 103.** Which structures perform the function of mitochondria in bacteria ?

(1) Nucleoid (2) Ribosomes (3) Cell wall (4) Mesosomes

जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है ?

(1) केन्द्रकाम (2) राइबोसोम (3) कोशिका भित्ति (4) मध्यकाय

Ans. (4)

Mesosome of Bacteria is analogous organ of Mitochondria. Both has respiratory enzymes.

जीवाणु का भीजोसोम, माइटोकॉण्ड्रिया का समवृत्ति अंग है। इन दोनों में श्वसनीय एन्जाइम्स होते हैं।

- 104.** The solid linear cytoskeletal elements having a diameter of 6 nm and made up of a single type of monomer are known as :

(1) Microtubules (2) Microfilaments
 (3) Intermediate filaments (4) Lamins

एक ठोस रैखिक साइटोपंजर जिसका व्यास 6 nm है और जो एकल प्रकार के एकलक से बना है, किस नाम से जाना जाता है ?

(1) सूक्ष्मनलिका (2) सूक्ष्मतंतु
 (3) अन्तर्स्थः तन्तु (4) लैमिन्स

Ans. (2)

- 105.** The osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by :

(1) Mitochondria (2) Vacuoles (3) Plastids (4) Ribosomes

जल में रखी एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है ?

(1) सूत्रकणिका (2) रसधानी (3) लवक (4) राइबोसोम

Ans. (2)

- 106.** During which phase(s) of cell cycle, amount of DNA in a cell remains at 4 C level if the initial amount is denoted as 2C ?

(1) G₀ and G₁ (2) G₁ and S (3) Only G₂ (4) G₂ and M

यदि डी.एन.ए. की प्रारम्भिक मात्रा 2C हो, तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में, कोशिका में डी.एन.ए. की मात्रा 4C स्तर पर रहती है ?

(1) G₀ और G₁ (2) G₁ और S (3) केवल G₂ (4) G₂ और M

Ans. (3)

- 107.** Match the following and select the correct answer :

(a)	Centriole	(i)	Infoldings in mitochondria
(b)	Chlorophyll	(ii)	Thylakoids
(c)	Cristae	(iii)	Nucleic acids
(d)	Ribozymes	(iv)	Basal body cilia or flagella

	A	B	C	D
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:

(a) तारक केन्द्र (i) सूत्रकणिका में अन्तःवलन

(b) पर्णहरित (ii) थाइलेकॉड

(c) अंतः कटक (iii) न्यूकिलिक अम्ल

(d) राइबोजाइम (iv) पक्षाभ या कशाभ की आधार काय

	A	B	C	D
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

Ans. (1)

- 108.** Dr F. Went noted that if coleoptile tips were removed and placed on agar for one hour, the agar would produce a bending when placed on one side of freshly - cut coleoptile stumps. Of what significance is this experiment ?

- (1) It made possible the isolation and exact identification of auxin.
- (2) It is the basis for quantitative determination of small amounts of growth- promoting substances.
- (3) It supports the hypothesis that IAA is auxin.
- (4) It demonstrated polar movements of auxins

डॉ. एफ. वेंट ने निरीक्षण किया कि यदि प्रांकुर चोल को अलग कर उसे एक घंटे के लिए अगार में रखा जाये तो अगार एक झुकाव उत्पन्न करेगा, यदि उसे ताजे कटे हुए प्रांकुर चोल टूट के एक ओर स्थापित किया जाय | इस प्रयोग का क्या महत्व है ?

- (1) इससे ऑक्जीन का पृथक्करण और सही पहचान सम्भव हुआ |
- (2) यह वृद्धिप्रोत्साहक पदार्थों की कम मात्रा के मात्रात्मक निर्धारण का आधार है |
- (3) यह इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि आई.ए.ए. ऑक्जीन है |
- (4) यह ऑक्सजीन का ध्रुवीय गमन को दर्शाता है |

Ans. (1)

- 109.** Deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible first in :

- | | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| (1) Senescent leaves | (2) Young leaves | (3) Roots | (4) Buds |
| नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं ? | | | |
| (1) जीर्णमान पत्तियों में | (2) तरुण पत्तियों में | (3) जड़ों में | (4) कलियों में |

Ans. (1)

Nitrogen and Potassium are mobile elements.

नाइट्रोजन तथा पोटेशियम चलायमान तत्व हैं

- 110.** In which one of the following processes CO_2 is not released ?


- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| (1) Aerobic respiration in plants | (2) Aerobic respiration in animals |
| (3) Alcoholic fermentation | (4) Lactate fermentation |

निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO_2 मुक्त नहीं होती ?


- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (1) पादपों में वायु श्वसन | (2) प्राणियों में वायु श्वसन |
| (3) एल्कोहली किण्वन | (4) लैक्टेट किण्वन |

Ans. (4)

In lactate fermentation neither CO_2 releases nor NADH.H^+ forms.



लैक्टेट किण्वन में न तो CO_2 निकलती है और न ही NADH.H^+ बनता है



- 111.** Anoxygenic photosynthesis is characteristic of:

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| (1) <i>Rhodospirillum</i> | (2) <i>Spirogyra</i> | (3) <i>Chlamydomonas</i> | (4) <i>Ulva</i> |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|

अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है ?

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| (1) रोडोस्पाइरिलम | (2) स्पाइरोग्रायरा | (3) क्लेमाइडोमोनास | (4) अल्वा |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|

Ans. (1)

Sol. Rhodospirillum is Anoxygenic Nitrogen Fixing photo-synthetic bacterium
www.vaidyarthi.in/

रोडोस्पाइरिलम अवायवीय, नाइट्रोजन फिक्सिंग, प्रोटोप्लास्ट, सास्टक्स जानकारी है।

Get CBSE Notes, Video Tutorials, Previous Years' Papers & Sample Papers

112. A few normal seedling of tomato were kept in a dark room. After few days they were found to have become white-coloured like albions, Which of the following terms will you use to describe them?

- (1) Mutated (2) Embolised (3) Etiolated (4) Defoliated

टमाटर के कुछ सामान्य नवोदयिदों को अंधेरे कक्ष में रखा गया। कुछ दिनों के बाद वे वर्णकहीन के जैसे सफेद हुए पाये गए। उनका वर्णन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करेंगे?

- (1) उत्परिवर्तित (2) अन्तरारोहित (3) पांडुरित (4) निष्पत्रित

Ans. (3)

113. Which one of the following growth regulators is known as stress hormone?

- (1) Abscissic acid (2) Ethylene
(3) GA₃ (4) Indole acetic acid

निम्नलिखित में से कौन-सा वृद्धि नियन्त्रक प्रतिबल हार्मोन के नाम से जाना जाता है?

- (1) एक्सीसिक अम्ल (2) एथिलिन
(3) GA₃ (4) इंडोल एसीटिक अम्ल

Ans. (1)

114. Geitonogamy involves

- (1) Fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant
(2) Fertilization of a flower by the pollen from another same flower.
(3) Fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant in the same population
(4) Fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to a distant population

सजात पुष्पी परागण में क्या होता है?

- (1) एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से
(2) एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से
(3) एक पुष्प का निषेचन उसी समस्ति के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से
(4) एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समस्ति के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से

Ans. (1)

115. Male gametophyte with least number of cells is present in :

- (1) Pteris (2) Funaria (3) Lilium (4) Pinus

कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद्भिद् किसमें होता है?

- (1) टेरिस (2) फ्यूनेरिया (3) लिलियम (4) पाइनस

Ans. (3)

Sol. Lilium is angiospermic plant, in which male gametophyte is 3 - celled and most reduced gametophyte as compared to Funaria (Bryophyte). Pinus (Gymnosperm), Pteris (Pteridophyte)

लिलियम आवृत्तबीजीय पादप है जिसमें नर गेमिटोफाइट 3 - कोशिकीय होता है तथा फ्यूनेरिया (Bryophyte), पाइनस (Gymnosperm), टेरिस (Pteridophyte) के गेमिटोफाइट की तुलना में अत्यधिक ह्यसित होता है।

116. An aggregate fruit is one which developed from

- (1) Multicarpellary syncarppous gynoecium
(2) Multicarpellary apocarppous gynoecium
(3) Complete inflorescence
(4) Multicarpellary superior ovary

एक पुंज फल वह है जो विकसित होता है:

- (1) बहुअण्डपी युक्तांडपी जायांग से
(2) बहुअण्डपी वियुक्तांडपी जायांग से
(3) पूर्ण पुष्पक्रम से
(4) बहुअण्डपी उर्ध्ववर्ती अण्डाशय से

Ans. (2)

- 117.** Pollen tablets are available in the market for:
- (1) In vitro fertilization
 - (2) Breeding programmes
 - (3) Supplementing food
 - (4) Ex situ conservation
- पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध हैं ?
- (1) पात्र निषेचन के लिए
 - (2) प्रजनन योजनाओं के लिए
 - (3) खाद्य सम्पूरण के लिए
 - (4) बाह्यस्थाने संरक्षण के लिए

Ans. (3)

- 118.** Function of filiform apparatus is to :
- (1) Recognize the suitable pollen at stigma
 - (2) Stimulate division of generative cell
 - (3) Producer nector
 - (4) Guide the entry of pollen tube
- तन्तुरूप समुच्चय का क्या कार्य है ?
- (1) वर्तिकाग्र पर उपयुक्त पराग को पहचानना
 - (2) जनन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करना
 - (3) मकरंद का उत्पादन
 - (4) पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन

Ans. (4)

- Sol.** Filiform apparatus finger like projections of synergids of embryo sac that guide the entry of pollen tube in embryo sac
- तन्तुरूपी उपकरण, सिनरजिड की अंगुली सदृश्य अतिवृद्धियाँ हैं जो भ्रूणकोष में परागनली के प्रवेश को निर्देशित करती है

- 119.** Non- albuminous seed is produced in:
- (1) Maize
 - (2) Castor
 - (3) Wheat
 - (4) Pea
- एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं?
- (1) मक्का
 - (2) अंडंडी
 - (3) गेहूँ
 - (4) मटर

Ans. (4)

- 120.** Which of the following shows coiled RNA strand and capsomeres ?
- (1) Polio virus
 - (2) Tobacco mosaic virus
 - (3) Measles virus
 - (4) Retro virus
- कुंडलित आर एन ए रज्जुक और पेटिकांशक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है ?
- (1) पोलिओ विषाणु
 - (2) तंबाकू मोजेक विषाणु
 - (3) खसरा विषाणु
 - (4) पश्च विषाणु

Ans. (2)

- 121.** Which one of the following is wrongly matched ?
- (1) Transcription - Writing information from DNA to - RNA
 - (2) Transcription - Using information in m - RNA to make protein
 - (3) Repressor protein - Binds to a operator to stop enzyme synthesis
 - (4) Operon - Structural genes, operator and promoter.
- निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित हैं ?
- (1) अनुलेखन - डी एन ए से ठी आर एन ए को सूचना लिखना ।
 - (2) अनुवादन - प्रोटीन निर्माण के लिए एम-आर एन ए में सूचना का इस्तेमाल करना ।
 - (3) दमकारी प्रोटीन - प्रक्रिय्य संश्लेषण को रोकने के लिए प्रचालक को बंधित करता है ।
 - (4) ओपेरॉन - संरचनात्मक जीन, प्रचालक और उन्नायक ।

Ans. (1)

- Sol.** Transcription - writing information from DNA to m-RNA.
- अनुलेखन - डी.एन.ए. से एम - आर.एन.ए. को सूचना लिखना

122. Transformation was discovered by :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| (1) Meselson and stahl | (2) Hershey and chase |
| (3) Griffith | (4) Waston and crick |
| रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई ? | |
| (1) मेसेल्सन और स्टाल | (2) हर्शे और चेस |
| (3) ग्रिफिथ | (4) वाट्सन और क्रिक |

Ans. (3)

123. Fruit colour in squash is an example of :

- | | |
|---|------------------------|
| (1) Recessive epistasis | (2) Dominant epistasis |
| (3) Complementary genes | (4) Inhibitory genes |
| कुम्हड़ा के फल का रंग किसका उदाहरण है ? | |
| (1) अप्रभावी प्रबलता | (2) प्रभावी प्रबलता |
| (3) पूरक जीन | (4) निरोधी जीन |

Ans. (2)

124. Viruses have :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| (1) DNA enclosed in a protein coat | (2) Prokaryotic nucleus |
| (3) Single Chromosome | (4) Both DNA and RNA |
| विषाणुओं में क्या होता है ? | |
| (1) प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डी एन ए | (2) प्राक्केन्द्रकी केन्द्रक |
| (3) अकेला गुणसूत्र | (4) डी एन ए और आर एन ए दोनों |

Ans. (4)

125. The first human hormone produced by recombinant DNA technology is :

- | | | | |
|---|---------------|----------------|-------------------|
| (1) Insulin | (2) Estrogen | (3) Thyroxin | (4) Progesterone |
| पुनर्योगज डी एन ए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौनसा है ? | | | |
| (1) इन्सुलिन | (2) एस्ट्रोजन | (3) थाइरोक्सीन | (4) प्रोजेस्टोरॉन |

125. (1)

Sol. The first hormone to be genetically engineered i.e. insulin is commercially available as **humulin**.

जेनेटिक इन्जिनियरिंग द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम हार्मोन इन्सुलिन, व्यवसायिक रूप में हूमेलिन के रूप में उपलब्ध है।

126. An analysis of chromosomal DNA using the Southern hybridization technique does not use:

- | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------|
| (1) Electrophoresis | (2) Blotting | (3) Autoradiography | (4) PCR |
| गुण सूत्रीय डी एन ए के विश्लेषण में सदर्न संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता ? | | | |
| (1) वैद्युत कण संचलन | (2) शोषण | (3) स्वविकिरणी चित्रण | (4) पी सी आर |

Ans. (4)

127. In vitro clonal propagation in plants is characterized by :

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) PCR and RAPD | (2) Northern blotting |
| (3) Electrophoresis and HPLC | (4) Microscopy |
| पादपों में पात्रे क्लोनी प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है ? | |
| (1) पी. सी. आर. और आर. ए. पी. डी. | (2) नार्दर्न शोषण |
| (3) वैद्युत कण संचलन और एच पी एल सी | (4) सूक्ष्मदर्शिकी |

Ans. (4)

128. An alga which can be employed as food for human beings :

- | | | | |
|--|---------------|------------------|-------------------|
| (1) Ulothrix | (2) Chlorella | (3) Spirogyra | (4) Polysiphonia |
| वह कौनसा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जाता है ? | | | |
| (1) युलोथ्रिक्स | (2) क्लोरेला | (3) स्पाइरोगायरा | (4) पॉलिसाइफोनिया |

Ans. (2)

- 129.** Which vector can clone only a small fragment of DNA ?
 (1) Bacterial artificial chromosome (2) Yeast artificial chromosome
 (3) Plasmid (4) Cosmid
 कौनसा संवाहक जो एन ए के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है ?
 (1) जीवाणु का कृत्रिम गुणसूत्र (2) यीष्ट का कृत्रिम गुणसूत्र
 (3) प्लैजिड (4) कॉस्मिड

Ans. (3)

Sol. Length of DNA in cloning vectors.

Plasmid - 5-10 kb

Cosmid - 40 - 45 kb

Bacterial -

Artificial Chromosome - 200 - 350 kb

Yeast artificial chromosome - 1 Mb

क्लोनिंग संवाहकों में DNA की लम्बाई

Plasmid - 5-10 kb

Cosmid - 40 - 45 kb

Bacterial -

Artificial chromosome - 200 - 350 kb

Yeast artificial chromosome - 1 Mb

- 130.** An example of ex situ conservation is :

- (1) National Park (2) Seed Bank
 (3) Wildlife sanctuary (4) Sacred Grove

बाह्यस्थान संरक्षण का एक उदाहरण कौनसा है ?

- (1) राष्ट्रीय उद्यान (2) बीज बैंक
 (3) वन्य प्राणी अभयारण्य (4) पवित्र उपवन

Ans. (2)

- 131.** A location with luxuriant growth of lichens on the trees indicates that the :

- (1) Trees are very healthy (2) Trees are heavily infested
 (3) Location is highly polluted (4) Location is not polluted

किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संकेत देता है ?

- (1) वृक्ष अत्यधिक स्वस्थ है (2) वृक्ष भारी पीड़ा से ग्रस्त है
 (3) वह स्थान अत्यधिक प्रदूषित है (4) वह स्थान प्रदूषित नहीं है

Ans. (4)

Sol. Lichens are indicators of SO_2 pollution. If location is not polluted by SO_2 than growth of lichen will enhance.

लाइकेन्स SO_2 प्रदूषण के सूचक हैं, यदि कोई स्थान SO_2 द्वारा प्रदूषित नहीं है तो वहां लाइकेन की वृद्धि अधिक होगी ।

- 132.** Match the following and select the correct option :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| (a) Earthworm | (i) Pioneer species |
| (b) Succession | (ii) Detrivore |
| (c) Ecosystem service | (iii) Natality |
| (d) Population growth | (iv) Pollination |

- | a | b | c | d |
|-----------|------|-------|-------|
| (1) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) (iv) | (i) | (iii) | (ii) |
| (3) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |

निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिये—

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (a) केंचूआ | (i) अग्रगामी जातियाँ |
| (b) अनुक्रमण | (ii) अपरदाहारी |
| (c) पारिस्थिकीय तंत्र सेट | (iii) विद्युत प्रौद्योगिकी |
| (d) जनसंख्या वृद्धि | (iv) परागण |

- | | a | b | c | d |
|-----|-------|------|-------|-------|
| (1) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) | (iv) | (i) | (iii) | (ii) |
| (3) | (iii) | (ii) | (v) | (i) |
| (4) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) |

Ans. (4)

133. A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called :

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) Vulnerable | (2) Endemic |
| (3) Critically Endangered | (4) Extinct |

एक जाति, जो निकट भविष्य में विलोपन के उच्च जोखिम की चरमता का सामना कर रही हैं उसे क्या कहा जाता है ?

- | | |
|------------------------|-------------|
| (1) सुभेद्य | (2) स्थानिक |
| (3) क्रांतिक संकटापन्न | (4) विलोप |

Ans. (3)

134. The zone of atmosphere in which the ozone layer is :

- | | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| (1) Ionosphere | (2) Mesosphere | (3) Stratosphere | (4) Troposphere |
| वायुमण्डल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है, उसे क्या कहते हैं? | | | |
| (1) आयनमण्डल | (2) मध्यमण्डल | (3) समतापमण्डल | (4) क्षोभमण्डल |

Ans. (3)

135. The organization which published the Red List of species is :

- | | | | |
|---|---------------------------|----------|---------|
| (1) ICFRE | (2) IUCN | (3) UNEP | (4) WWF |
| कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है ? | | | |
| (1) आई. सी. एफ. आर. ई. | (2) आई. यू. सी. एन. | | |
| (3) यु. एन. ई. पी. | (4) डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. | | |

Ans. (2)

136. Select the Taxon mentioned that represents both marine and fresh water species :

- | | |
|---|----------------|
| (1) Echionoderms | (2) Ctenophora |
| (3) Cephalocoradata | (4) Cnidaria |
| बताये गए टेक्सोनों में उसका चुनाव कीजिए जिसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियाँ होती हैं। | |
| (1) एकाइनोडर्म्स | (2) टेनोफोरा |
| (3) सिफेलोकार्डटा | (4) निडेरिया |

Ans. (4)

Sol. Echinoderms, Ctenophores and Cephalochordates are exclusively marine. However, Cnidarians live in both marine as well as fresh water habitats.

इकाइनोडर्म्स, टिनोफोर्स तथा सिफेलोकार्डट्स पूर्णतया समुद्री होते हैं। जबकि निडेरियन्स समुद्री तथा स्वच्छ जल दोनों ही आवासों में पाये जाते हैं।

137. Which one of the following living organisms completely lacks a cell wall?

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) Cyanobacteria | (2) Sea-fan (<i>Gorgonia</i>) |
| (3) Saccharomyces | (4) Blue-green algae |
| निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव है ? | |
| (1) सायनोबैक्टीरिया | (2) समुद्री फेन (गोर्गोनिया) |
| (3) सेक्रोमाइसीज | (4) नील हरित शैवाल |

Ans. (2)

Sea fan (*Gorgonia*) is an animal belonging to Phylum Cnidaria. The animal cells are devoid of cellulosic cell wall.

समुद्री पंखा (गोर्गोनिया) संघ निडेरिया से संबंधित एक जलीय है। जल कोशिकाओं में सेल्युलोज निर्मित कोशिका भित्ति का अभाव होता है।

138. *Planaria* possess high capacity of:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| (1) metamorphosis | (2) regeneration |
| (3) alternation of generation | (4) bioluminescence |

प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है?

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) कायांतरण | (2) पुररूद्भवन |
| (3) पीढ़ी एकांतरण | (4) जैव-संदीप्ति |

Ans. (2)

Sol. Lower animals such as sponges, cnidarians and flat worms like *Planaria* are known to exhibit high degree of regeneration.

निम्नतर जन्तु जैसे स्पंज, निडेरियन्स तथा चपटे कृमि जैसे प्लेनेरिया उच्च कोटि की पुनरुद्भवन क्षमता प्रदर्शित करते हैं।

139. A marine cartilaginous fish that can produce electric current is:

- | | | | |
|-------------|-------------|------------|---------------|
| (1) Pristis | (2) Torpedo | (3) Trygon | (4) Scoliodon |
|-------------|-------------|------------|---------------|

एक समुद्री उपास्थित मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है :

- | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| (1) प्रिस्टिस | (2) टोरपिडो | (3) ट्राइगन | (4) स्कोलियोडान |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|

Ans. (2)

Sol. *Torpedo* (electric ray) possesses modified muscles acting as electric organs.

टोरपीडो (इलेक्ट्रिक रे) में रूपांतरित पेशियां वैद्युत अंगों का कार्य करती हैं।

140. Choose the correctly matched pair:

- | | |
|---|--|
| (1) Tendon-Specialized connective tissue | (2) Adipose tissue-Dense connective tissue |
| (3) Areolar tissue- Loose connective tissue | (4) Cartilage-Loose connective tissue |

सही—सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिये :

- | | |
|---|------------------------------|
| (1) कंडरा (टेंडन)- विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक | (2) वसा ऊतक— घना संयोजी ऊतक |
| (3) त्वचा गर्तिका ऊतक— शिथिल संयोजी ऊतक | (4) उपास्थि—शिथिल संयोजी ऊतक |

Ans. (3)

Sol. Areolar connective tissue is a type of loose connective tissue and is most widely distributed in human body.

त्वचा गर्तिका संयोजी ऊतक एक प्रकार का शिथिल संयोजी ऊतक है तथा यह मानव शरीर में सर्वाधिक विखरा हुआ होता है।

141. Choose the correctly matched pair:

- | |
|---|
| (1) Inner lining of salivary ducts - Ciliated epithelium |
| (2) Moist surface of buccal cavity - Glandular epithelium |
| (3) Tubular parts of nephrons- Cuboidal epithelium |
| (4) Inner surface of bronchioles - Squamous epithelium |

सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिये :

- | |
|--|
| (1) लार नाल का आन्तरिक स्तर—पक्ष्माभ उपकला |
| (2) मुख गुहिका की नम सतह—ग्रंथिल उपकला |
| (3) नेफ्रोन के नलिकाकार भाग—घनाकार उपकला |
| (4) श्वसनिका की आन्तरिक सतह—श्लकी उपकला |

Ans. (3)

Sol. The tubular parts of nephron (except Bowman's capsule and thin limbs of Henle's loop) are lined by cuboidal epithelium

नेफ्रोन के नलिकीय भाग (बोमेन संपुट तथा हेन्ले की चाप के पतली भुजाओं को छोड़कर) घनाकार उपकला से स्तरित होते हैं।

142. In 'S' phase of the cell cycle:

- | | |
|---|--|
| (1) amount of DNA doubles in each cell. | (2) amount of DNA remains same in each cell. |
| (3) chromosome number is increased | (4) amount of DNA is reduced to half in each cell. |

कोशिका चक्र के 'एस' प्रावस्था में क्या होता है ?

- | |
|--|
| (1) प्रत्येक कोशिका में डी. एन. ए. की मात्रा दुगनी हो जाती है। |
|--|

- | |
|---|
| (2) प्रत्येक कोशिका में डी.एन. ए. की मात्रा वही रहती है |
|---|

Educational Material Downloaded from <http://www.evidyarthi.in/>

Get CBSE Notes, Video Tutorials, Test Papers & Sample Papers

- | |
|---|
| (3) गुणसूत्र की संख्या आधिक हो जाती है। |
|---|

- | |
|--|
| (4) प्रत्येक कोशिका में डी.एन.ए. की मात्रा आधी रह जाती है। |
|--|

- Sol.** Replication of DNA takes place in S-phase of interphase.
इन्टरफेज अवस्था की S-प्रावस्था में DNA का प्रतिकृतियन होता है

- 143.** The motile bacteria are able to move by:

- | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|
| (1) fimbriae | (2) flagella | (3) cilia | (4) pili |
| गतिमान जीवाणु किस के द्वारा गति करते हैं ? | | | |
| (1) फिम्ब्रि | (2) कशाभिका | (3) पक्षमाम | (4) पिल्ली |

Ans. (2)

- 144.** Select the option which is not correct with respect to enzyme action:

- | | |
|--|--|
| (1) Substrate binds with enzyme at its active site. | (2) Addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate |
| (3) A non- competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds the substrate | (4) Malonate is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase |

एन्जाइम किया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिये जो गलत है :

- | | |
|--|--|
| (1) क्रियाधार एन्जाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है। | (2) बहुत सा सक्सीनेट डालने से सक्सीनिक डीहाइड्रोजनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता। |
| (3) एक अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन एन्जाइम के उस स्थल से जुड़ता है जो क्रियाधार के जुड़ने के स्थल के भिन्न है। | (4) मेलोनेट सक्सीनिक डीहाइड्रोजनेज का एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है। |

Ans. (2)

- Sol.** Inhibition of the enzyme, succinate dehydrogenase by malonate is an example of competitive inhibition. Such inhibition is overcome by addition of excess substrate (succinate) in the medium.

मेलोनेट (प्रतिस्पर्धी संदमक) के द्वारा सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज विकर का संदमन, प्रतिस्पर्धात्मक संदमन का एक उदाहरण है। माध्यम में अत्यधिक मात्रा में क्रियाधार (सक्सीनेट) डालकर इस प्रकार के संदमन से मुक्ति पाई जा सकती है।

- 145.** Which one of the following is a non-reducing carbohydrate?

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| (1) Maltose | (2) Sucrose | (3) Lactose | (4) Ribose 5-phosphate |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|

निम्नलिखित में से कौन सा एक अन-अपचायक कार्बोहाइड्रेट है ?

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| (1) माल्टोज | (2) सुक्रोज | (3) लैक्टोज | (4) राइबोज-5फॉस्फेट |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|

Ans. (2)

- Sol.** Sucrose is a disaccharide. It is composed of each one of the glucose and fructose molecules joined together by $\alpha-1, 2$ glycosidic bond. It is an example of nonreducing sugars.

सुक्रोज एक डाइसेक्टराइड है। यह ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज प्रत्येक के एक अणु से मिलकर बना होता है जो $\alpha-1, 2$ ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं।

- 146.** The enzyme recombinase is required at which stage of meiosis:

- | | | | |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| (1) Pachytene | (2) Zygote | (3) Diplotene | (4) Diakinesis |
|---------------|------------|---------------|----------------|

रिकम्बिनेज एन्जाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है ?

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| (1) पेचीटिन (स्थूलपट्ट) | (2) जाईगोटीन (युग्मपट्ट) | (3) डिप्लोटिन(द्विपट्ट) | (4) डाइकाइनेसिस (पारगतिक्रम) |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|

Ans. (1)

- Sol.** Replication of DNA takes place in S-phase of interphase stage.

इन्टरफेज अवस्था की S-प्रावस्था में DNA का प्रतिकृतियन होता है

- 147.** The initial step in the digestion of milk in human is carried out by ?

- | | | | |
|------------|-------------|------------|------------|
| (1) Lipase | (2) Trypsin | (3) Rennin | (4) Pepsin |
|------------|-------------|------------|------------|

मानवों में दूध के पाचन की आंरम्भिक क्रिया किस के द्वारा की जाती है ?

- | | | | |
|------------|---------------|-----------|-------------|
| (1) लाइपेज | (2) ट्रिप्सिन | (3) रेनिन | (4) पेप्सिन |
|------------|---------------|-----------|-------------|

Ans. (3)

- Sol.** The enzyme rennin is responsible for the coagulation of milk by converting soluble milk protein (casein) to insoluble milk protein (paracasein). This is the first step of digestion of milk.

रेनिन विकर, घुलनशील दुध प्राटान (कासन) का अघुलनशील दुध प्राटान (पराकासन) में बदलकर दुध के स्कंदन हेतु उत्तरदायी तेज़ है। यह क्रिया दूध का पाचन करने का प्रारंभिक त्रैया है।

- 148.** Fructose is absorbed into the blood through mucosa cells of intestine by the process called
(1) active transport (2) facilitated transport (3) simple diffusion (4) co-transport mechanism

फ्रक्टोज का अवशोषण आंत के श्लेषा कोशिकाओं में से होकर रक्त में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है ?
(1) सक्रिय परिवहन (2) सुसाध्य परिवहन (3) सामान्य विसरण (4) सह परिवहन क्रियाविधि

Ans. (2)

Sol. Passive transport of fructose involves a carrier protein without utilisation of ATP. Hence it is also called facilitated transport.

फ्रक्टोज का असक्रिय परिवहन बिना ATP खर्च किये एक वाहक प्रोटीन के द्वारा संपन्न होता है | अतः इसे सुसाध्य परिवहन भी कहा जाता है |

- 149.** Approximately seventy percent of carbon-dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs:

- (1) as bicarbonate ions (2) in the form of dissolved gas molecules
(3) by binding to R.B.C. (4) as carbamino-haemoglobin

रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70 प्रतिशत भाग फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है?

- (1) बाइकार्बोनेट आयन के रूप में (2) गैस के अणुओं की घुली हुई अवस्था में
(3) लाल रक्त कणिकाओं से बंधन करके (4) कार्बमीनो- हीमोग्लोबिन की तरह

Ans. (1)

Sol. About 70% of CO_2 is converted into bicarbonates inside RBCs in presence of an enzyme carbonic anhydrase. The bicarbonates are transported as salts of sodium and potassium in blood plasma as well as RBCs.

लगभग 70% CO_2 लाल रुधिर कणिकाओं में कार्बनिक एनहाइड्रेज विकर द्वारा बाइकार्बोनेट्स में परिवर्तित हो जाता है। बाइकार्बोनेट्स का सॉडियम तथा पोटैशियम लवणों के रूप में रुधिर प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं में संवहन होता है।

- 150.** Person with blood group AB is considered as universal recipient because he has:

- (1) both A and B antigens on RBC but no antibodies in the plasma.
(2) both A and B antibodies in the plasma.
(3) no antigen on RBC and no antibody in the plasma
(4) both A and B antigens in the plasma but no antibodies

AB रक्त समूह वाला व्यक्ति क्यों सार्व आदाता (ग्राही) माना जाता है?

- (1) लाल रुधिर कोशिकाओं पर A और B दोनों प्रतिजन होते हैं तथा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती है
(2) प्लाज्मा में A और B दोनों प्रतिरक्षी होती है
(3) लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई प्रतिजन नहीं होते और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी नहीं होती।
(4) प्लाज्मा में A और B दोनों प्रतिजन होते हैं पर प्रतिरक्षी नहीं होती।

Ans. (3)

Sol. Person with blood group AB is considered as universal recipient because he has no antigen on RBC and no antibody in the plasma.

AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही माने जाते हैं क्योंकि उनके रुधिर प्लाज्मा में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है।

- 151.** How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart.

- (1) Reduce both heart rate and cardiac output
(2) Heart rate is increased without affecting the cardiac output.
(3) Both heart rate and cardiac output increase
(4) Heart rate decreases but cardiac output increases.

परानुकंपी तंत्रिकाय संकेत हृदय के कार्य—संचालन की कैसे प्रभावित करते हैं ?

- (1) हृदय स्पन्दन गति, हृदय निकास पर बिना प्रभाव किये, बढ़ जाती है।
(2) हृदय स्पन्दन गति, हृदय निकास पर बिना प्रभाव किये, बढ़ जाती है।
(3) हृदय स्पन्दन गति और हृदय निकास दोनों बढ़ जाते हैं।
(4) हृदय स्पन्दन गति कम हो जाती है लेकिन हृदय निकास बढ़ जाता है।

Ans. (1)

Sol. Parasympathetic signals reduce both heart rate and cardiac output.

Educational Material Downloaded from <http://www.evidyarthi.in/>
परानुकंपी संकेत हृदय गति की दूर तथा हृदय लाभ दानों का धृतात है।
Get CBSE Notes, Video Tutorials, Test Papers & Sample Papers

152. Which of the following causes an increase in sodium reabsorption in distal convoluted tubule?

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) Increase in aldosterone levels | (2) Decrease in antidiuretic hormone levels |
| (3) Decrease in aldosterone levels | (4) Decrease in antidiuretic hormone levels |

निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूरस्थ संवालित नलिका में सोडियम का पुनरावशोषण बढ़ जाता है ?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) ऐलडोस्टेरोन के स्तर के बढ़ने से | (2) एंटीडाइसूरेटिक हार्मोन के स्तर के बढ़ने से |
| (3) ऐलडोस्टेरोन के स्तर के घटने से | (4) एंटीडाइयूरेटिक हार्मोन के स्तर के घटने से |

Ans. (1)

Sol. Aldosterone is secreted by zona glomerulosa of adrenal cortex and also known as salt retaining hormone. ऐल्डोस्टीरॉन एड्रीनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से खालित होता है तथा लवण प्रतिधारक हार्मोन के रूप में जाना जाता है।

153. Select the correct matching of the types of the joint with the example in human skeletal system:

Types of joint	Examples
(1) Cartilaginous joint	between frontal and parietal
(2) Pivot joint	between third and fourth cervical vertebrae
(3) Hinge joint	between humerus and pectoral girdle
(4) Gliding joint	between carpals

मानव के कंकाल तंत्र में जोड़ के प्रकार और उसकी उदाहरण के सही मेल का चयन कीजिये :

जोड़ की प्रकार	उदाहरण
(1) उपरिथ युक्त जोड़	फ्रंटल और पैराइटल के बीच
(2) धुराग्र (पाइवट) जोड़	तीसरे और चौथे ग्रीवा कशेरुकल्पों के बीच
(3) कब्जा (हीन्ज) जोड़	ह्यूमरस और अंस मेखला के बीच
(4) विसर्पी (ग्लाइडिंग) जोड़	कार्पल्स के बीच

Ans. (4)

Sol. Gliding joint occurs between carpals.

कार्पल्स की बीच में ग्लाइडिंग संधि पायी जाती है।

154. Stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occurs at:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) the neuromuscular junction | (2) the transverse tubules |
| (3) the myofibril | (4) the sacroplasmic reticulum |

प्रेरक न्यूरॉन द्वारा पेशी तंतु का उद्दीपन कहाँ पर होता है?

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| (1) तंत्रिका पेशी जंक्शन | (2) अनुप्रस्थ नलिकाएँ |
| (3) पेशीरेशक | (4) पेशीद्रव्य जालिका |

Ans. (1)

Sol. Stimulation of a muscle fiber, by a motor neuron, occurs at the sarcolemma of neuro muscular junction due to the release of a neurotransmitter(acetylcholine).

चालक तंत्रिका द्वारा तंत्रिक तंतु का उद्दीपन तंत्रिका-पेशी संधि के सार्कोलेमा पर एक तंत्रिका संचारी (एसेटिल्कोलिन) के मुक्त होने से होता है।

155. Injury localized to the hypothalamus would most likely disrupt:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (1) short - term memory | (2) co - ordination during locomotion |
| (3) executive functions, such as decision making. | (4) regulation of body temperature |

हाइपोथेलेमस तक सीमित क्षति संभवतः निम्न लिखित में से किस एक को बाधित करेगी ?

- | | |
|---|-----------------------------|
| (1) लघु- कालिक स्मृति | (2) चलन में समन्वयन |
| (3) कार्यकारी प्रकार्य, जैसे कि निर्णय लेना | (4) शरीर के तापमान का नियमन |

Ans. (4)

Sol. Thermoregulatory centre is present in the hypothalamus.

हाइपोथेलेमस में ताप नियामक केन्द्र उपस्थित होता है।

- 156.** Which one of the following statements is not correct?
(1) Retinal is the light absorbing portion of visual photo pigments.
(2) In retina the rods have the photopigments rhodopsin while cones have three different photopigments.
(3) Retinal is a derivative of Vitamin C.
(4) Rhodopsin is the purplish red protein present in rods only.

निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है ?
(1) रेटिनल दृष्टि प्रकाश वर्णक का प्रकाश अवशोषण करने वाला भाग है।
(2) रेटिना में प्रकाश वर्णक रोडोप्सिन शलाकाओं में होता है।
(3) रेटिनल विटामिन C का व्युत्पन्न है।
(4) रोडोप्सिन बँगनी लाल प्रोटीन है जो केवल शलाकाओं में ही उपस्थित होता है।

Ans. (3)

Sol. Retinal is derivative of vitamin A.

रेटिनल विटामिन A का व्युत्पन्न है।

- 157.** Identify the hormone with its correct matching of source and function:

- (1) Oxytocin - posterior pituitary, growth and maintenance of mammary glands.
(2) Melatonin - pineal gland, regulates the normal rhythm of sleepwake cycle.
(3) Progesterone - corpus-luteum, stimulation of growth and activities of female secondary sex organs.
(4) atrial natriuretic factor- ventricular wall increases the blood pressure.
होर्मोन की पहचान के साथ उसके सही स्रोत और उक्से कार्य के सही मिलान को चुनिये :
(1) ओक्सीटोसिन – पश्च पीयुष ग्रंथि-दुध ग्रंथियों का विकास और रख रखाव।
(2) मेलेटोनिन-पिनियल ग्रंथि- शरीर के दैनिक लय का नियमन।
(3) प्रोजेस्टेरोन-कॉर्पसल्यूटियम-स्ट्रियों में द्वितीय लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं की प्रेरणा।
(4) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक- हृदय की निलय भित्ति रक्त दाब को बढ़ाता है

Ans. (2)

Sol. Melatonin is secreted by the pineal gland and regulates the normal rhythm of sleepwake cycle.

मेलेटोनिन पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और सामान्य दैनिक लय को नियमित करता है।

- 158.** Fight - or - flight reaction cause activation of :

- (1) the parathyroid glands, leading to increased metabolic rate.
(2) the kidney, leading to suppression of renin angiotensin-aldosterone pathway.
(3) the adrenal medulla, leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrene
(4) the pancreas leading to a reduction in the blood sugar levels.

फाईट या फ्लाइट अभिक्रियाओं के कारण किस का सक्रियण होता है?

- (1) पैराथाइरॉइड ग्रंथियों का जिसके कारण उपापचयी दर बढ़ जाता है।
(2) वृक्त का जिसके कारण रेनिन-एनजियोटेनसिन ऐलडोस्टिरोन पथ में कमी हो जाती है।
(3) अधिवृक्त का जिसके कारण एपिनेफ्रीन और नारएपिनेफ्रीन का स्रावण बढ़ जाता है।
(4) अग्न्याशय का जिसके कारण रुधिर शर्करा का स्तर घट जाता है।

Ans. (3)

Sol. The secretion of epinephrine and norepinephrene are secreted by adrenal medulla and are associated with fight are flight reactions.

एपीनेफ्रीन तथा नारएपिनेफ्रीन अधिवृक्त मज्जा से स्रावित होते हैं तथा फाईट एवं फ्लाइट क्रियाओं से संबंधित होते हैं।

- 159.** The shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male is:

- (1) Urethra (2) Ureter (3) Vas deferens (4) Vasa efferentia

मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझी अंत्य वाहिका है:

- (1) मूत्र मार्ग (2) मूत्र वाहिनी (3) शुक्र वाहक (4) शुक्रवाहिक

Ans. (1)

Sol. The ejaculatory duct opens into the urethra which is a common passage both, for urine and semen.

स्खलन नलिका का अंतिम छाँड़ा मूत्र प्रणाली में एवं जनन की वाहिका ही प्राप्ति / अंतिम विहेतालाग्राम मार्ग है।

- 160.** The main function of mammalian corpus luteum is to produce:
- (1) estrogen only
 - (2) progesterone
 - (3) human chorionic gonadotropin
 - (4) relaxin only
- स्तनपायी कार्पस लूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित को ही पैदा करना होता है :
- (1) केवल एस्ट्रोजन
 - (2) प्रोजेस्ट्रोन
 - (3) मानव कोरिओनिक गोनेडोट्रोपिन
 - (4) केवल रिलेक्सिन

Ans. (2)

Sol. After successful fertilization the ruptured graafian follicle converts into corpus luteum. It chiefly secretes progesterone.

सफल निषेचन के बाद दूटी हुई ग्राफियन पुटिका कार्पलस लूटियम में रूपांतरित हो जाती है। यह मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती है।

- 161.** Select the correct option describing gonadotropin activity in a normal pregnant female:

- (1) High level of FSH and LH stimulates the thickening of endometrium
- (2) High level of FSH and LH facilitate implantation of the embryo.
- (3) high level of hCG stimulates the synthesize of estrogen and progesterone
- (4) High level of hCG stimulates the thickening of endometrium.

एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनेडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन कीजिये—

- (1) एफ एस एच और एच एच के उच्च स्तर द्वारा एन्डोमेट्रियम के स्थूलन का उद्दीपन।
- (2) एफ एस एच और एल एच के उच्च स्तर द्वारा भूषण के अंतरोपण को सुविधा जनक बनाना।
- (3) एच सी जी का उच्च स्तर ऐट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन के संश्लेषण का उद्दीपन करता है।
- (4) एच सी जी का उच्च स्तर एन्डोमेट्रियम के स्थूलन का उद्दीपन करता है।

Ans. (3)

Sol. Human chorionic gonadotropin(hCG) is secreted by placenta. It maintains the corpus luteum and thereby stimulate the synthesis of estrogen and progesterone.

मानव कोरिओनिक गोनेडोट्रोपिन (hCG) ऑवल से स्रावित होता है। यह कार्पस लूटियम को बनाये रखता है तथा इस प्रकार एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के संश्लेषण को उद्दीपित करता है।

- 162.** Tubectomy is method of sterilization in which:

- (1) small part of the fallopian tube is removed or tied up.
- (2) ovaries are removed surgically
- (3) small part of vas deferens is removed or tied up.
- (4) uterus is removed surgically

ट्यूबेक्टोमी बंधकरण के एक विधि है जिसमें :

- (1) डिंबवाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है।
- (2) अंडाशय की शल्यक्रिया विधि से निकाल दिया जाता है।
- (3) वास डेफरेन्स का छोटा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है।
- (4) गर्भाशय शल्यक्रिया विधि द्वारा निकाल दिया जाता है।

Ans. (1)

Sol. Tubectomy is a sterilization method of birth control in which small part of the fallopian tube is removed or tied up.

ट्यूबेक्टोमी जन्म नियंत्रण की एक बंधकरण विधि है जिसमें डिंबवाहिनी का एक छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है।

- 163.** Which of the following is a hormone releasing intra Uterine Device (IUD) ?

- (1) Multiload 375
- (2) LNG - 20
- (3) Cervical cap
- (4) Vault

निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन मोचित करने वाली इंट्रायूटेराइन युक्ति (आइ यू डी) है :

- (1) मल्टीलोड-375
- (2) एल एन जी-20
- (3) ग्रीवा टोपी
- (4) वाल्ट

Ans. (2) Educational Material Downloaded from <http://www.evidyarthi.in/>
Get CBSE Notes, Video Tutorials, Test Papers & Sample Papers

Sol. Multiload- 375 and LNG-20 are copper releasing and hormone releasing IUDs.

- 164.** Assisted reproductive technology, IVF involves transfer of:
(1) Ovum into the fallopian tube.
(2) Zygote into the fallopian tube.
(3) Zygote into the uterus
(4) Embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube.

सहायक जनक प्रोद्योगिकी, IVF के अन्तर्गत किसका स्थानान्तर होता है ?

- (1) अण्डाणु का फेलोपी नलिका में
 - (2) युग्मज का फेलोपी नलिका में
 - (3) युग्मज का गर्भाशय में
 - (4) 16 ब्लास्टोमीयर्स वाले भ्रूण का फेलोपी नलिका में

Ans. (2)

Sol. The transfer of zygote and early embryo upto eight blastomere stage is carried out into the fallopian tube. It is known as Zygote Intra Fallopian Transfer (ZIFT) and is a type of IVF.

युग्मनज तथा आठ कोरकखण्डों वाले प्रारंभिक भ्रून का स्थानान्तरण डिम्बवाहिनी में किया जाता है। यह युग्मनज अंतराडिम्बवाहिनी स्थानान्तरण (ZIFT) कहलाता है तथा IVF का एक प्रकार है।

- 165.** A man whose father was colour blind marries a woman who had a colour blind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be colour blind ?

एक मनुष्य जिसका पिता वर्णन्धता से ग्रसित था एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसकी माता वर्णन्धता से ग्रसित और पिता सामान्य है। इस यगल के नर बच्चों का कितना प्रतिशत वर्णन्ध होगा ?

Ans. (3)

Sol. X^cX XY
 Female Male
 (Normal & Carrier) (Normal eyed)

♂	X	Y
X^c	X^cX	X^cY
X	X^cX	XY

Male children 50% will be colorblind of this couple.

इस दम्पत्ति के 50% नर बच्चे वर्णाधि होंगे

- 166.** In a population of 1000 individuals 360 belong to genotype AA, 480 to Aa and the remaining 160 to aa, Based on this data, the frequency of allele A in the population is :

- (1) 0.4 (2) 0.5 (3) 0.6 (4) 0.7

1000 व्यष्टियों की समस्ति में 360 जीनप्ररूप AA, 480 Aa और शेष 160 aa के अन्तर्गत आते हैं। इस आंकड़े के आधार पर A एलील की आवृत्ति इस समस्ति में होगी :

- (1) 0.4 (2) 0.5 (3) 0.6 (4) 0.7

Ans. (3)

- 167.** A human female with Turner's syndrome:

एक चाई जो दर्जे सिंडोम से ग्रस्त है:

- (1) उसमें 45 गुणसूत्र XO के साथ हैं।
 (2) उसमें एक अधिक X गुणसूत्र हैं।
 (3) _____ दो _____ दो _____ दो _____ हैं।

(3)

168. Select the correct option:

	Direction of RNA synthesis	Direction of reading of the template DNA strand
(1)	5' - 3'	3' - 5'
(2)	3' - 5'	5' - 3'
(3)	5' - 3'	5' - 3'
(4)	3' - 5'	3' - 5'

सही विकल्प का चयन कीजिए—

	आर.एन.ए. के संश्लेषण की दिशा	टेम्पलेट डी.एन.ए. लड़ी के रीडिंग की दिशा
(1)	5' - 3'	3' - 5'
(2)	3' - 5'	5' - 3'
(3)	5' - 3'	5' - 3'
(4)	3' - 5'	3' - 5'

Ans. (1)

169. Commonly used vectors for human genome sequencing are:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| (1) T - DNA | (2) BAC and YAC |
| (3) Expression Vectors | (4) T/A Cloning Vectors |

मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वैक्टर है :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) T - डी.एन.ए. | (2) बी.ए.सी. और वाइ.ए.सी. |
| (3) अभिव्यक्ति वैक्टर | (4) T/A क्लोनिंग वैक्टर |

Ans. (2)

170. Forelimbs of cat, lizard used in walking ; forelimbs of whale used in swimming and forelimbs of bats used in flying are an example of :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) Analogous organs | (2) Adaptive radiation |
| (3) Homologous organs | (4) Convergent evolution |

बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने ; घेरे के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं , ये किसके उदाहरण हैं ?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (1) समवृत्तिय अंग | (2) अनुकूली विकिरण |
| (3) समजात अंग | (4) अमेसारी विकास |

Sol. (3)

Forelimbs of cat, lizard, whale and bats are structurally similar and functionally different. Such organs are called as homologous organs.

बिल्ली, लिजर्ड, घेरे तथा चमगादड़ के अग्रबाहु संरचनात्मक रूप से समान परन्तु कार्यात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं।

171. Which one of the following are analogous structures ?

- | |
|---|
| (1) Wings of Bat and Wings of Pigeon |
| (2) Gills of Prawn and Lungs of Man |
| (3) Thorns of Bougainvillea and Tendrils of Cucurbita |
| (4) Flippers of Dolphin and legs of Horse. |

निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएँ हैं ?

- | |
|--|
| (1) चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख |
| (2) प्रॉन के गिल और मनुष्य के फेफड़े |
| (3) बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के तंतु |
| (4) डाल्फिन के फिल्स्पैक्टों के तार |

Ans. (1)

Get CBSE Notes, Video Tutorials, Test Papers & Sample Papers

Sol. The structurally different but functionally similar organs are called as analogous organs.

कार्यात्मक रूप से समान तथा संरचनात्मक रूप से असमान अंग समवृत्त अंग कहलाते हैं।

- 172.** Which is the particular type of drug that is obtained from the plants whose one flowering branch is shown below ?



(1) Hallucinogen

(2) Depressant

(3) Stimulant

(4) Pain - Killer

वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव्य है जो उस पौधे से प्राप्त होती है जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दिखाई गयी है ?



(1) हैलूसिनोजन

(2) अवनमक

(3) उद्दीपक

(4) दर्द - निवारक

Ans.

(1)

Sol. The branch of the plant given above is of *Datura*. It is a source of psychoactive compound which causes hallucinations.

ऊपर दिये हुए पौधे की शाखा धतूरा की है। यह मतिभ्रम पैदा करने वाले एक मनोसक्रिय योगिक का स्रोत है।

- 173.** At which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS ?

(1) With in 15 days of sexual contact with an infected person.

(2) When the infected retro virus enters host cells.

(3) When HIV damages large number of helper T - Lymphocytes.

(4) When the viral DNA is produced by reverse transcriptase.

एच. आई. वी. संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्रायः दिखायी देते हैं।

(1) संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक सम्पर्क बनाने के 15 दिनों के भीतर हो।

(2) जब संक्रमित रेट्रोवायरस पोषक कोशिका में प्रवेश करता है।

(3) जब एच.आई.वी. विशाल संख्या में हेल्पर टी-लिम्फोसाइटों को क्षतिग्रस्त करता है।

(4) जब उत्क्रम ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा वायरल डी.एन.ए. उत्पन्न होता है।

Ans.

(3)

Sol. HIV selectively destroys helper T- lymphocytes. It therefore causes symptoms of immuno deficiency due to critically low number of helper T-lymphocytes.

HIV, चयनात्मक रूप से सहायक T- लिम्फोसाइट्स को क्षतिग्रस्त करता है। इस प्रकार सहायक T- लिम्फोसाइट्स की संख्या में असामान्य गिरावट से प्रतिरक्षा न्यूनता के लक्षण प्रकट होते हैं।

174. To obtain virus - free healthy plants from a diseased one by tissue culture technique, which part/parts of the diseased plant will be taken ?

- (1) Apical meristem only (2) Palisade parenchyma
(3) Both apical and axillary meristems (4) Epidermis only

ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा रोगी पादप से विषाणु – मुक्त स्वस्थ पादपों को प्राप्त करने के लिए रोगी पादप के किस भाग / भागों को लिया जाएगा ?

- (1) केवल शीर्ष विभज्योतक (2) पेलीसेड पेरेन्काइमा
(3) शीर्ष और अक्षीय विभज्योतक दोनों ही (4) केवल अधिचर्म

Ans. (3)

175. What gases are produced in anaerobic sludge digesters ?

- (1) Methane and CO₂
(2) Methane, Hydrogen Sulphide and CO₂
(3) Methane, Hydrogen Sulphide and CO₂
(4) Hydrogen Sulphide and CO₂

कौनसी गैसें अवायवीय आपांक संपादित्र में उत्पन्न होती है ?

- (1) केवल मीथेन और CO₂
(2) मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO₂
(3) मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO₂
(4) हाइड्रोजन सल्फाइड और CO₂

Ans. (2)

Sol. During sludge digestion, bacteria (sludge digesters) produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulphide and carbon dioxide. These gases form biogas which can be used as source of energy.

कचड़ा के दौरान जीवाणु (कचड़ा पचाने वाले) मिथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक मिश्रण उत्पन्न करते हैं। ये बायोगैस बनाती है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है।

176. Just as a person moving from Delhi to Shimla to escape the heat for the duration of hot summer, thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern regions move to:


- (1) Western Ghat (2) Meghalaya
(3) Corbett National Park (4) Keolado National Park

जिस प्रकार एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला जाता है उसी प्रकार साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी प्रदेशों से हजारों प्रवासी पक्षी किस ओर जाते हैं ?

- (1) पश्चिमी घाट (2) मेघालय
(3) कार्बट राष्ट्रीय उद्यान (4) कियोलादी राष्ट्रीय उद्यान

Ans. (4)


177. Given below is a simplified model of phosphorus cycling in a terrestrial ecosystem with four blanks (A-D). Identify the blanks.



Options :

	A	B	C	D
(1)	Rock minerals	Detritus	Litter fall	Producers
(2)	Litter	Producers	Rock minerals	Detritus
(3)	Detritus	Rock minerals	Producer	Litter fall
(4)	Producers	Litter fall	Rock minerals	Detritus

एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फॉस्फोरस चक्र का सरलीकृत मॉडल नीचे दिया गया है जिसमें चार खाली स्थान (A-D) हैं। इन्हें पहचानिएः




Options :

	A	B	C	D
(1)	चट्टानी खनिज	अपरद	लिटरफाल (करकट)	उत्पादक
(2)	करकट	उत्पादक	चट्टानी खनिज	अपरद
(3)	अपरद	चट्टानी खनिज	उत्पादक	करकट
(4)	उत्पादक	करकट	चट्टानी खनिज	अपरद

Ans. (3)


- 178.** Given below is the representation of the extent of global diversity of *invertebrates*. What groups the four portions (A-D) represent respectively?



Option

	A	B	C	D
(1)	Insects	Crustaceans	Other animal groups	Molluscs
(2)	Crustaceans	Insects	Molluscs	Other animal groups
(3)	Molluscs	Other animals groups	Crustaceans	Insects
(4)	Insects	Molluscs	Crustaceans	Other animal groups

अक्षरों की वैश्विक जीव विविधता का अनुपातिक विस्तार नीचे दिये गया है। चार समूह(A-D) किस का प्रतिनिधित्व करते हैं?



Option

	A	B	C	D
(1)	कीट	क्रस्टेशिया	अन्य प्राणी समूह	मोलस्क
(2)	क्रस्टेशिया	कीट	मोलस्क	अन्य प्राणी समूह
(3)	मोलस्क	अन्य प्राणी समूह	क्रस्टेशिया	कीट
(4)	कीट	मोलस्क	क्रस्टेशिया	अन्य प्राणी समूह

Ans. (4)

Sol. The insects comprise largest number of species in the animal kingdom while Mollusca is the second largest animal phylum.

जन्तु जगत में जातियों की सर्वाधिक संख्या कीटों की हैं जबकि मोलस्का दूसरा सर्वाधिक बड़ा जन्तु संघ है।

- 179.** A scrubber in the exhaust of a chemical industrial plant removes :

- (1) Gases like sulphur dioxide
- (2) Particulate matter of the size 5 micrometer or above
- (3) Gases like ozone and methane
- (4) Particulate matter of the size 2.5 micrometer or less

एक रासायनिक प्रोद्योगिक संस्थान के निकास में लगा हुआ स्क्रबर क्या हटाता है ?

- (1) सल्फर डाईऑक्साइड जैसी गैस
- (2) 5 माइक्रोमीटर के या इससे बड़े कणकीय पदार्थ
- (3) ओजोन और मीथेन जैसी गैस
- (4) 2.5 माइक्रोमीटर के या इससे छोटे कणकीय पदार्थ

Ans. (4)

180. If 20 J of energy is trapped at producer level, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain ?
plant → mice → snake → peacock
(1) 0.02 J (2) 0.002 J (3) 0.2 J (4) 0.0002 J
यदि 20 J ऊर्जा उत्पादक स्तर पर पर रोक ली जाती है तो, कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित शृंखला के अन्तर्गत मोर को उपलब्ध होगी ?
पौधा → माइस → सांप → मोर
(1) 0.02 J (2) 0.002 J (3) 0.2 J (4) 0.0002 J

Ans. (1)

Sol. **10% rule of Lindman is applicable**

plant → mice → snake → peacock
20J 2J 0.2J 0.02J

यहाँ लिण्डमेन का **10%** नियम लागू होता है
पौधा → चूहा → सांप → मोर
20J 2J 0.2J 0.02J